



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26—जनवरी 01, 2010 (पौष 05, 1931)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26—JANUARY 01, 2009 (PAUSA 05, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1121	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1197	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	77	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4423
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1943	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	11921
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के दल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	663
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1121

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1197

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 77

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1943

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 4423

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 11921

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies..... 663

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2009

संख्या 121-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:--

श्री एम पुन्ना राव
 पुलिस महानिरीक्षक
 सीआईडी, हैदराबाद
 आंध्र प्रदेश

श्री के. जगन मोहन रेड्डि
 अपर पुलिस अधीक्षक
 हैदराबाद
 आंध्र प्रदेश

श्री रमेश कुमार त्रिपाठी
 सार्जेंट मेजर
 सारण जिला छपरा
 बिहार

श्री अरूण कुमार सिंह
 सार्जेंट मेजर
 पुलिस लाईन्स, भोजपुर, आरा जिला
 बिहार

श्री रवि प्रताप सिंह
 सहायक कमांडेंट
 7वीं बटालियन, सीएएफ, भिलाई
 छत्तीसगढ़

श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव
 संयुक्त पुलिस आयुक्त
 पुलिस मुख्यालय
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री शंकरसन दाश
 पुलिस उपायुक्त
 नई दिल्ली जिला
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री विनय वीरेन्द्र चौधरी
 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
 गोवा

श्री प्रकाश पुरुषोत्तम प्रधान
 शस्त्रहीन पुलिस उपाधीक्षक
 पोरबंदर जिला
 गुजरात

श्री परमवीर राठी
 पुलिस महानिदेशक (सीआईडी)
 चंडीगढ़
 हरियाणा

श्री राम सिंह बिश्नोई
 पुलिस अधीक्षक
 मेवात
 हरियाणा

श्री जोग राज ठाकुर
 पुलिस उप महानिरीक्षक
 यातायात, पर्यटक और रेलवे, शिमला
 हिमाचल प्रदेश

श्री जावेद रियाज
सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक)
पुलिस मुख्यालय, श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री जी.एम. हयात
पुलिस महानिरीक्षक
केएसआरटीसी, बैंगलौर
कर्नाटक

श्री एच सी किशोर चंद्र
पुलिस महानिरीक्षक
आर्थिक अपराध, बैंगलौर
कर्नाटक

श्री पी चन्द्रशेखरन
पुलिस महानिरीक्षक
तिरुवनन्तपुरम
केरल

श्री एम आर कृष्णा
पुलिस महानिरीक्षक
जबलपुर
मध्य प्रदेश

श्री केशव चन्द्र वर्मा
पुलिस महानिरीक्षक
एसएएफ रेंज, ग्वालियर
मध्य प्रदेश

श्री भारत भूषण सिंह ठाकुर
पुलिस महानिरीक्षक
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री एस पी एस यादव
पुलिस अपर महानिदेशक
सीआईडी अपराध, एमएस पुणे
महाराष्ट्र

श्री चन्द्रकांत शालू जानराव
कमांडेंट
एसआरपीएफ ग्रेड VI धुले
महाराष्ट्र

श्री यशवंत रामचन्द्र तावडे
सहायक पुलिस आयुक्त
घाटकोपर प्रभाग, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री खूमनथेम चन्द्रमणी सिंह
कमांडेंट
7वीं बटालियन. मणिपुर राईफल्स, खबीसोई
मणिपुर

श्री दिनेश कुमार भट्ट
उप महानिरीक्षक (सीआईडी)
आइजोल
मिजोरम

श्री अजय कुमार परीडा
पुलिस अधीक्षक
विशेष शाखा, कटक
उड़ीसा

श्री ब्रह्म पॉल
पुलिस अधीक्षक
चंडीगढ़
पंजाब

श्री जगतार सिंह
पुलिस उप अधीक्षक
पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर
पंजाब

श्री कृष्ण कुमार शर्मा
अपर पुलिस महानिदेशक
सतर्कता, जयपुर,
राजस्थान

श्री भगवती नाथ योगेश्वर
पुलिस महानिरीक्षक
सुरक्षा, जयपुर,
राजस्थान

श्री टी राजेन्द्रन
अपर पुलिस महानिदेशक
कानून और व्यवस्था, चेन्नई
तमिलनाडु

श्री अमिताभ कर
पुलिस महानिरीक्षक
अगरतला
त्रिपुरा

श्री अम्बरीश चन्द्र शर्मा
अपर पुलिस महानिदेशक
डा. बीआरए यूपी पुलिस अकादमी, मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री विपन कुमार
पुलिस महानिरीक्षक
एसीओ, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री भोला नाथ सिंह
कमांडेंट
15वीं बटालियन. पीएसी, आगरा
उत्तर प्रदेश

श्री देवी प्रसाद जुयाल
पुलिस उप अधीक्षक
नैनीताल
उत्तराखण्ड

श्री शिवाजी घोष
अपर पुलिस आयुक्त (III)
कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री देबन्दरपल सिंह
पुलिस उप अधीक्षक
पीएस- बरसात, उत्तरी 24 परगना जिला
पश्चिम बंगाल

श्री विजय कुमार
पुलिस उप अधीक्षक
पीसीआर
चंडीगढ़

श्री नंद किशोर
महानिरीक्षक
एफटीआर मुख्यालय, कदमताला दार्जिलिंग,
पश्चिम बंगाल
सीमा सुरक्षा बल

श्री अजीत मोहन भटनागर
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू बीएसएफ राजोरी, जम्मू और कश्मीर
सीमा सुरक्षा बल

श्री कमल सिंह चौहान
उप महानिरीक्षक
शिलांग, मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू कोलकाता, पश्चिम बंगाल
सीमा सुरक्षा बल

श्री दिनेश कुमार पाण्डे
उप महानिरीक्षक
एफटीआर मुख्यालय,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल
सीमा सुरक्षा बल

श्री ओम प्रकाश गलहोत्रा
संयुक्त निदेशक
एस टी एफ जोन दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अरूण कुमार
संयुक्त निदेशक
एस सी जोन दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री ऋषि राज सिंह
संयुक्त निदेशक
मुम्बई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री धीरेन्द्र नाथ विश्वास
अपर पुलिस अधीक्षक
कोलकाता
एस यु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हर्ष वर्धन चतुर्वेदी
महानिरीक्षक
एनईएस मुख्यालय, कोलकाता
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री ए. सैयद जफरुल्ला
वरिष्ठ कमांडेंट
एनएलसी नेवेली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राजेश प्रताप सिंह
पुलिस महानिरीक्षक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राजेन्द्र घई
पुलिस उप महानिरीक्षक
गांधी नगर, गुजरात
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गोपाल दास पेवाल
पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रोव.)
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बालाकेश्वन श्रीनिवासन मेथिल
पुलिस उप महानिरीक्षक
सीडब्ल्यूएस-II, तेलीगांव, पुणे, महाराष्ट्र
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए एम मुहम्मद
पुलिस उप महानिरीक्षक
सीडब्ल्यू एस-I रामपुर (यूपी)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरज मुख गाबा
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री श्री राम सिंह
सहायक निदेशक
डीआरटीसी, शिवपुरी
गृह मंत्रालय

श्री महेन्द्र झा
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री सुरेन्द्र नाथ टागरा
सहायक निदेशक
मुम्बई
गृह मंत्रालय

श्री हनुमान प्रसाद यादव
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
जयपुर
गृह मंत्रालय

श्री शिव प्रसाद मेहरा
सहायक निदेशक
दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री बृज बिहारी सिंह
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-I/जी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री हीरा सिंह
उप महानिरीक्षक
आटीबीपी अकादमी, मंसूरी, उत्तराखंड
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री विजय सिंह यादव
सहायक कमांडेंट
19वीं बटालियन, सरहन, शिमला, हिमाचल प्रदेश
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री राजेन्द्र सिंह नेगी
महानिरीक्षक
एसएसबी अकादमी, श्रीनगर
सशस्त्र सीमा बल

श्री प्रसून मुखर्जी
महानिदेशक
नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री मुकेश चेतल
उप पुलिस अधीक्षक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री लोकनाथ बेहरा
विशेष कार्याधिकारी
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अन्वेषण व्यूरो

श्री रूप कुमार दासरू कोरे
निरीक्षक
पेंडरा रोड,
रेलवे सुरक्षा बल, प्रभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़
रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किए जाने के संबंध में लागू नियमों के नियम 4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 122-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस,
2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक
सेवा के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती है:--

श्री राजीव रतन
पुलिस उप महानिरीक्षक
आक्टोपस, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री हरिश कुमार गुप्ता
संयुक्त पुलिस आयुक्त
हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री जितेन्द्र
पुलिस उप महानिरीक्षक
आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री वाई गंगाधर
पुलिस अधीक्षक
जिला विजयनगरम
आंध्र प्रदेश

श्री मेडिपल्ली अशोक वर्धन रेड्डि
अपर पुलिस अधीक्षक
आसूचना हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री हरि किशोर बिशौई
अपर पुलिस अधीक्षक
ग्रेहाउन्स, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री शैक सिराजुद्दिन
अपर कमांडेंट

3 बटालियन एपीएसपी, काकीनाडा
आंध्र प्रदेश

श्री गगगुदूरू किशोर बाबू राजा
उप पुलिस अधीक्षक
रामचंद्रापुरम् (मेडक)
आंध्र प्रदेश

श्री के.पी. लक्ष्मी नायक
सहायक पुलिस आयुक्त
चिक्काडपल्ली संभाग, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री विडुलामुड्डि सुरेश बाबू
सहायक पुलिस आयुक्त
यातायात विजयवाड़ा शहर
आंध्र प्रदेश

श्री ए बाला कृष्णा
पुलिस निरीक्षक
विशेष शाखा, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री एस. बालाराजू
पुलिस -आरक्षी निरीक्षक
विशेष आसूचना शाखा, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री जे. किशन
आरक्षी उप-निरीक्षक
आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री के. वैकटारत्नम्
पुलिस सहायक उप- निरीक्षक
त्रिरूपति देहात
आंध्र प्रदेश

श्री एस. दासरदी
पुलिस सहायक उप- निरीक्षक
जिला ईलूरु, विशेष शाखा
आंध्र प्रदेश

श्री एल. जयपाल रेड्डि
पुलिस सहायक उप- निरीक्षक
वारंगल जिला विशेष शाखा
आंध्र प्रदेश

श्री एन. सुधाकर
हैड कांस्टेबल
सेन्ट्रल क्राइम स्टेशन, एसपीएस नेल्लौर जिला
आंध्र प्रदेश

श्री एम. सुधाकर रेड्डि
पुलिस आरक्षी उप-निरीक्षक
विशेष आसूचना शाखा, हैदराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री वी. वैकटेश्वर राव
पुलिस कांस्टेबल
गोपालपुरम, उत्तरी जोन सिकन्दराबाद
आंध्र प्रदेश

श्री मारगे रीबा
पुलिस उपाधीक्षक
नाहरलगुन
अरुणाचल प्रदेश

श्री अभय कुमार उपाध्याय
पुलिस महानिरीक्षक
विशेष सतर्कता शाखा, पटना
बिहार

श्री विनय कुमार
पुलिस महानिरीक्षक
आसूचना, पटना,
बिहार

श्रीमती प्रीता वर्मा
पुलिस महानिरीक्षक
सीआईडी, पटना
बिहार

श्री बरूण कुमार सिन्हा
पुलिस अधीक्षक
स्पेशल ब्रांच, पटना
बिहार

श्री मो. अब्दुल मनान
उप - निरीक्षक
सीआईडी, पटना
बिहार

श्री अजहर हुसैन अंसारी
कांस्टेबल
पीएचक्यू, पटना
बिहार

श्री शिव कुमार सिंह
हवलदार
पीएचक्यू, पटना
बिहार

श्री कृष्ण कुमार
कांस्टेबल
सीआईडी, पटना
बिहार

श्री राजेश्वर राम
कांस्टेबल
सीआईडी, पटना
बिहार

श्री राजेन्द्र उपाध्याय
सिपाही
स्पेशल ब्रांच, पटना
बिहार

श्री सुशील कुमार सिन्हा
कांस्टेबल
एससीआरबी, पटना
बिहार

श्री राजेश तिवारी
कांस्टेबल
पीएचक्यू, पटना
बिहार

श्री रबिन्द्र नाथ तिवारी
कांस्टेबल
पीएचक्यू, पटना
बिहार

श्री राधे श्याम नायक
पुलिस अधीक्षक
एसीबी, रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री टेक राम पेंकरा
सेनानी
6 बटालियन. सीएएफ, रायगढ़.
छत्तीसगढ़

श्री विजय नारायण शुक्ला
उपनिरीक्षक
स्पेशल ब्रांच, पीएचक्यू, रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री जगदीश कुमार टेम्भुरकर
सुबेदार (एम)
8वी बटालियन सीएएफ
छत्तीसगढ़

श्री कृपा शंकर शुक्ला
सेक्शन कमांडर
द्वितीय बटालियन सीएएफ,
सकरी बिलासपुर, छत्तीसगढ़

श्री पृथ्वी नाथ सिंह
हैड कांस्टेबल
बलरामपुर पीएस
छत्तीसगढ़

श्री भुनेश्वर राम
हैड कांस्टेबल
पीएस. सानावाल, बलरामपुर
छत्तीसगढ़

श्री सरदारी लाल
सहायक पुलिस आयुक्त
प्रोविजनिंग एण्ड लोजिस्टिक्स
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला
निरीक्षक
पुलिस ट्रेनिंग कालेज
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री जगदीश चन्द्र पाण्डेय
निरीक्षक
एफआरआरओ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री संदीप चक्रवर्ती
निरीक्षक
संचार शाखा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री कुलदीप राज
उपनिरीक्षक
पुलिस कंट्रोल रूम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री हरबंश लाल
उपनिरीक्षक
सुरक्षा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती. रजनी राना
सहायक उप- निरीक्षक (महिला)
सुरक्षा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री शेर अली
हैड कांस्टेबल
1 बटालियन डीएपी एनपीएल दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री जोरावर सिंह
हैड कांस्टेबल
यातायात
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री सुरेश कुमार राना
हैड कांस्टेबल
बाहरी जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती. जानकी
हैड कांस्टेबल (महिला)
क्राइम (महिला) सेल, नानक पुरा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री सुरेन्द्र कुमार
कांस्टेबल
यातायात
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती. मधु बाला
हैड कांस्टेबल (महिला)
आरटीआई सेल (स्पेशल ब्रांच)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री अरविंद कुमार फूलशंकर महेता
सहायक पुलिस आयुक्त
हैंडक्वाटर अहमदाबाद सिटी
गुजरात

श्री के.एम. वाघेला
सहायक पुलिस आयुक्त
अहमदाबाद सिटी
गुजरात

श्री अर्जुनसिंह सबलसिंह राठोड
उप- पुलिस अधीक्षक
स्टेट कंट्रोल रूम, गांधी नगर
गुजरात

श्री राजेन्द्रसिंह रणजीतसिंह गोहिल
शस्त्रहीन पुलिस निरीक्षक
यातायात शाखा राजकोट सिटी,
गुजरात

श्री नरेन्द्रसिंह बहादुरसिंह जाडेजा
शस्त्रहीन पुलिस निरीक्षक
जसदन पुलिस स्टेशन, राजकोट जिला.
गुजरात

श्री दिलीप कुमार रमेश चन्द्र अग्रावत
शस्त्रहीन पुलिस निरीक्षक
स्थानीय अपराध शाखा, भड़च
गुजरात

श्री दिग्विजयसिंह महेंद्रसिंह वाघेला
शस्त्रहीन पुलिस निरीक्षक
खुफिया अपराध शाखा, राजकोट शहर
गुजरात

श्री कल्याणसिंह भगवानसिंह छासटिया
शस्त्रहीन हैड कांस्टेबल
वडोदरा देहात
गुजरात

श्री महावीरसिंह कनुभा झाला
शस्त्रहीन हैड कांस्टेबल
स्थानीय अपराध शाखा, सुरेन्द्र नगर
गुजरात

श्री विजय कुमार नटवरलाल राना
शस्त्रहीन पुलिसकांस्टेबल
स्थानीय अपराध शाखा, भड़च जिला
गुजरात

श्री अरशिन्दर सिंह चावला
पुलिस अधीक्षक
करनाल
हरियाणा

श्री मोहिन्द्र सिंह
निरीक्षक
एससीबी/मधुबन
हरियाणा

श्री जयश्री
निरीक्षक
पलवल
हरियाणा

श्री ईश्वर सिंह
निरीक्षक
जीआरपी, अंबाला कैंट
हरियाणा

श्री जोगिन्द्र कुमार
सहायक उप- निरीक्षक
सिरसा
हरियाणा

श्री सुखविंदर पाल
हैड कांस्टेबल
एसवीबी/चंडीगढ़
हरियाणा

श्री अनुराग गर्ग
पुलिस उप महानिरीक्षक
सेन्ट्रल रेंज मंडी
हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक तिवारी
पुलिस उप महानिरीक्षक
उत्तरी रेंज, धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश

श्री रनवीर सिंह
निरीक्षक
प्रथम आईआरबी, शाखा बंगढ़
हिमाचल प्रदेश

श्री दीपक कुमार
उपमहानिरीक्षक
गुलशन ग्राउंड, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्रीमती गुरदेव कौर
संयुक्त निदेशक (अभियोजन)
सीआईडी हैडक्वाटर,
जम्मू और कश्मीर

श्री जाकिर हुसैन
कमांडेंट, आई आर पी चौथी बटालियन
बाटमालू श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री रूपिन्दर कुमार छलोतरा
अपर पुलिस अधीक्षक
पुलिस कंट्रोल रूम, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री अब्दुल रशीद भट
निरीक्षक
हैडक्वाटर श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री अब्दुल कबीर भट
निरीक्षक
जेकेएपी, 13वीं बटालियन
जम्मू और कश्मीर

श्री मोहम्मद यूसुफ गनई
उप -निरीक्षक
सीआईडी हैडक्वाटर, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री विजय कुमार नखाशी
उप -निरीक्षक
एस के पी ए उधमपुर
जम्मू और कश्मीर

श्री गुलाम कादीर शाहीन
उप -निरीक्षक
सुरक्षा मुख्यालय
जम्मू और कश्मीर

श्री कुलदीप सिंह
उप -निरीक्षक
कमांडो ग्रुप छत्र
जम्मू और कश्मीर

श्री मंजूर अहमद
उपनिरीक्षक
कमांडो ग्रुप पुंछ
जम्मू और कश्मीर

श्री निसार हुसैन वानी
सहायक उप- निरीक्षक
सुरक्षा सिविल सचिवालय,
जम्मू और कश्मीर

श्री अनिल कुमार सुदान
सहायक उप- निरीक्षक
बटालियन मुख्यालय, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री के एच श्रीनिवासन
पुलिस उप महानिरीक्षक
रेलवे, बैंगलूरु
कर्नाटक

श्री पांडुरंगा हड्डे राने
पुलिस उपायुक्त
यातायात वेस्ट, बैंगलूरु
कर्नाटक

श्री के. एस. मोहन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त, रामनगर कर्नाटक	श्री रवीन्द्र श्यामण्ण हैड कांस्टेबल आसूचना, बैंगलूरु कर्नाटक
श्री एस एच गंगारेड्डी पुलिस अधीक्षक आसूचना, बेलगाँव कर्नाटक	श्री एम नागराजप्पा हैड कांस्टेबल VIII बटालियन, केएसआरपी शिमोगा कर्नाटक
श्री वी एस प्रभाकर पुलिस उपायुक्त बैंगलौर कर्नाटक	श्री रावाडा ए चन्द्र शेखर उप महानिरीक्षक एवं पुलिस आयुक्त तिरुवनन्तपुरम केरल
श्री एम.एम. महादेवय्या उप पुलिस अधीक्षक चामराजनगर सब डिविजन कर्नाटक	श्री विजय श्रीकुमार पुलिस अधीक्षक कोट्टायम केरल
श्री चंद्रशेखर लक्ष्मणराव कल्याण उप पुलिस अधीक्षक फिंगर प्रिंट ब्यूरो बेलगाँव कर्नाटक	श्री के आर प्रेमचन्द्रन सहायक पुलिस आयुक्त कोझीकोड दक्षिण केरल
श्री येरागुडी बाबूराजू पुलिस उपनिरीक्षक डीएसए, यूनिट बैल्लारी कर्नाटक	श्री सी.के. शंकरानारायणन पुलिस उपअधीक्षक विशेष शाखा, त्रिसूर केरल
श्री पुन्नप्पा थिम्मैयाह होसाकालु आरक्षी उप-निरीक्षक 5वीं बटालियन केएसआरपी, मैसूर कर्नाटक	श्री के.वी. जोसेफ उप पुलिस अधीक्षक सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इडुक्की एकक, थोडुपुझा केरल
श्री प्रभाकर रे आरक्षी उप-निरीक्षक VII बटालियन, केएसआरपी, मैंगलौर कर्नाटक	श्री डी. विजयन सहायक पुलिस आयुक्त तिरुवनन्तपुरम शहर केरल
श्री कनकप्पा दुर्गाप्पा मादर विशेष आरक्षी उप-निरीक्षक X बटालियन, केएसआरपी, शिंगौन कर्नाटक	श्री पी.सी. कृष्णाकुट्टी सहायक कमांडेंट के.ए.पी. द्वितीय बटालियन, पलक्काड केरल
श्री रामय्या एन ननजप्पा हैड कांस्टेबल आसूचना, बैंगलूरु कर्नाटक	

श्री जी. हरिकुमार
हैड कांस्टेबल
एसबी सीआईडी, तिरुवनन्तपुरम
केरल

श्री एम. श्रीकुमारन
सहायक उप- निरीक्षक
वी एसीबी, स्पेशल सेल, तिरुवनन्तपुरम
केरल

श्री सैयद मोहम्मद अफजल
उप महानिरीक्षक
एसएएफ, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री के बाबू राव
मुख्य सतर्कता अधिकारी
दक्षिण पूर्व कोयला खदान लिमिटेड, बिलासपुर
मध्य प्रदेश

श्री डी. सी सागर
उप महानिरीक्षक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी
भारतीय कपड़ा निगम लि०, नवी मुम्बई
मध्य प्रदेश

श्री रघुवीर सिंह मीणा
पुलिस अधीक्षक
चंबल, जोन ग्वालियर
मध्य प्रदेश

श्री अनिल शर्मा
पुलिस अधीक्षक
चंबल जोन, ग्वालियर
मध्य प्रदेश

श्री राकेश कुमार जैन
अपर पुलिस अधीक्षक
सतना जिला
मध्य प्रदेश

श्री मनोहर सिंह वर्मा
अपर पुलिस अधीक्षक
ग्वालियर
मध्य प्रदेश

श्री अशोक कुमार सोलंकी
उप पुलिस अधीक्षक
लोकायुक्त, उज्जैन
मध्य प्रदेश

श्री गोविन्द सिंह कठैत
क्वार्टर मास्टर
7वीं बटालियन., एसएएफ, भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री कालिका प्रसाद नौगेन
प्लाटून कमांडर
29वीं बटालियन. एसएएफ, दतिया
मध्य प्रदेश

श्री कुम्हेर सिंह परमार
हैड कांस्टेबल
5वीं बटालियन. एसएएफ, मुरैना
मध्य प्रदेश

श्री शंकर सिंह राठौर
कांस्टेबल
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, उज्जैन
मध्य प्रदेश

श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा
कांस्टेबल
सागर जिला
मध्य प्रदेश

श्री शंकर लाल सोनी
कांस्टेबल
विशेष शाखा, खंडवा
मध्य प्रदेश

श्री बृजमोहन प्रसाद त्रिपाठी
कांस्टेबल
शहडोल जिला
मध्य प्रदेश

श्री घनश्याम राहुल
सहायक उप- निरीक्षक(एम)
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री रावसाहेब दत्तात्रय शिंदे
पुलिस अधीक्षक
रायगढ़
महाराष्ट्र

श्री गुणवंत किशनराव वरठे
कमांडेंट
एसआरपीएफ ग्रेड.XIII, नागपुर
महाराष्ट्र

श्री रमेश बाबूलाल चौधरी
उप पुलिस अधीक्षक
खुफिया प्रशिक्षण विद्यालय, नासिक
महाराष्ट्र

श्री वीरेन्द्र लक्ष्मण गडकरी
अपर पुलिस अधीक्षक
महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक
महाराष्ट्र

श्री वसंत मारुती ताजने
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
एनएम जोशी मार्ग थाना, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री सुरेश पांडुरंग भोसले
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
पनवेल सिटी थाना, नवी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री महादेव श्रीपती गावडे
पुलिस निरीक्षक
यातायात शाखा, पुणे सिटी
महाराष्ट्र

श्री दयानंद हरिश्चन्द्र ढोमे
पुलिस निरीक्षक
पाटन थाना, सतारा
महाराष्ट्र

श्री भानुप्रताप शंकर बर्गे
पुलिस निरीक्षक
विशेष शाखा, पुणे
महाराष्ट्र

श्री चंपालाल दौलत सिंग शेवगण
पुलिस निरीक्षक
स्थानीय अपराध शाखा, उस्मानाबाद
महाराष्ट्र

श्री अशोक गोविन्द करपे
पुलिस निरीक्षक
नासिक सिटी
महाराष्ट्र

श्री वेनीमाधव भालचंद्र सोनावणे
सहायक पुलिस निरीक्षक
थाणे देहात
महाराष्ट्र

श्री पोपट दादा सोलसे
सहायक उप- निरीक्षक
नासिक सिटी
महाराष्ट्र

श्री नारायण सदाशिव दनाव
सशस्त्र सहायक उप- निरीक्षक
एसआरपीएफ ग्रेड.IV नागपुर
महाराष्ट्र

श्री शंकर धोंडीबा पेंधे
सहायक पुलिस उप- निरीक्षक
यातायात शाखा पुणे सिटी
महाराष्ट्र

श्री मारुति भिमराव राऊत
सहायक पुलिस उप -निरीक्षक
संरक्षण शाखा, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री प्रकाश रतीलाल वाघ
सशस्त्र सहायक उप- निरीक्षक
एसआरपीएफ ग्रेड VIII, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री वसंत देवराम पालादे
सहायक पुलिस उप- निरीक्षक
नासिक सिटी
महाराष्ट्र

श्री आसीफ अली जियाउद्दीन सैयद
सहायक पुलिस उप- निरीक्षक
नासिक सिटी
महाराष्ट्र

श्री रमेश जनार्दन खरात
सहायक उप- निरीक्षक
एमटी बुलढाना
महाराष्ट्र

श्री दिनकर हरचंद अडकमोल
हैड कांस्टेबल
एमआईडीसी पुलिस स्टेशन, जलगांव
महाराष्ट्र

श्री नजीरखा महंमदखा नवाजखा पठाण
हैड कांस्टेबल
एम टी सेक्शन नंदुरबर
महाराष्ट्र

श्री बन्शी रामचन्द्र डालींबे
हैड कांस्टेबल
बीडीडीएस पुणे
महाराष्ट्र

श्री अब्दूल रेहमानखा पठाणखा
हैड कांस्टेबल
वर्णगांव पुलिस स्टेशन
महाराष्ट्र

श्री प्रभाकर शंकर पाटील
हैड कांस्टेबल
एलएIII, वर्ली, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री दिपक बाबूराव पाटील
हैड कांस्टेबल
विशेष शाखा सोलापुर
महाराष्ट्र

श्री राम अनंतराव लांडगे
सशस्त्र पुलिस हैड कांस्टेबल
एसआरपीएफ ग्रेडII, पुणे
महाराष्ट्र

श्री लतीफ खां खजाखा पठाण
हैड कांस्टेबल
पीएचक्यू, बीड
महाराष्ट्र

श्री हरजिन्दरसिंग बलवंतसिंग चावला,
हैड कांस्टेबल
हाईवे सेफ्टी नांदेड
महाराष्ट्र

श्री शामगोंडा जिगोंडा पाटील
पुलिस नायक
सांगली ग्रामीण पुलिस स्टेशन, सांगली
महाराष्ट्र

श्री नामदेव विठोबा गव्हाणे
पुलिस नायक
एसीबी यूनिट, जालना
महाराष्ट्र

श्री हनुमंत संदीपन शिंदे
पुलिस नायक
बेम्बली पुलिस स्टेशन, उस्मानाबाद
महाराष्ट्र

श्री वाई अशोक कुमार सिंह
उप कमांडेंट
7वी बटालियन मणिपुर राईफल्स, खबिसोई
मणिपुर

श्री एल. रनजीत सिंह
जमादार
7वी आईआरबी, इम्फाल
मणिपुर

श्री एफ. एन. संगमा
अपर पुलिस अधीक्षक
शिलांग
मेघालय

श्री लालबियाकथांगा खेंगते
पुलिस अधीक्षक
आसजोल जिला
मिजोरम

श्री लालहमिंगलियाना साइलो
सहायक कमांडेंट
उरी आईआर बटालियन आफ्मजोल
मिजोरम

श्री इम्तियकुम ए ओ
उप कमांडेंट
त्वैनसांग
नागालैंड

श्री आनंदप्रकाश चाँद
फिटर निरीक्षक
पुलिस मोटर प्रशिक्षण चौकी मुख्यालय कटक
उड़ीसा

श्री प्राण कृष्ण राउत
निरीक्षक
एन्थापल्ली पुलिस स्टेशन सम्बलपुर
उड़ीसा

श्री बिपिन बिहारी नायक
निरीक्षक
सतर्कता बालासोड
उड़ीसा

श्री सुरेश चंद्र साहु
सहायक उपनिरीक्षक
सम्बलपुर
उड़ीसा

श्री शिव प्रसाद कानूनगो
हवलदार
आरक्षी कार्यालय, पंपोस, राउरकेला
उड़ीसा

श्री बीर किशोर नायक
कान्सटेबल, कटक
उड़ीसा

श्री त्रैलोक्य नाथ राउत
कांस्टेबल
विशेष शाखा, कटक
उड़ीसा

श्री बिष्णु चरण मिश्रा
कांस्टेबल
सतर्कता निदेशालय, कटक
उड़ीसा

श्री मंदीप सिंह
पुलिस अधीक्षक
सीमा शुल्क कारारोपण, पटियाला
पंजाब

श्री कमल कुमार
पुलिस अधीक्षक
क्षेत्रीय अपराध जालंधर
पंजाब

श्री अवतार सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
पीआरटीसी, जहां खेलन
पंजाब

श्रीमती लीला देवी
पुलिस निरीक्षक
प्रभारी महिला प्रकोष्ठ, जालंधर
पंजाब

श्री मोहिन्दर लाल
निरीक्षक
पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर
पंजाब

श्री जगीर सिंह
पुलिस निरीक्षक,
अमृतसर
पंजाब

श्री बहादुर सिंह
उप -निरीक्षक
पीएपी प्रशिक्षण केन्द्र, जालंधर
पंजाब

श्री कुलबीर सिंह
उपनिरीक्षक
जहां खेलन
पंजाब

श्री अमरीक सिंह
उपनिरीक्षक
आईजीपी का कार्यालय, (प्रशिक्षण), चंडीगढ़
पंजाब

श्री हरदेव सिंह
सहायक उप- निरीक्षक
अमृतसर
पंजाब

श्री सतपाल सिंह
हैड कांस्टेबल
लुधियाना(देहात)
पंजाब

श्री बलवंत राय
हैड कांस्टेबल
पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर
पंजाब

श्री बलदेव राज
हैड कांस्टेबल
गुरदास पुर
पंजाब

श्री मक्खन सिंह
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
काउंटर इन्टेलिजेंस अमृतसर
पंजाब

श्री सुनील दत्त
पुलिस उप महानिरीक्षक
अपराध शाखा, जयपुर
राजस्थान

श्री बाल मुकुंद वर्मा
पुलिस अधीक्षक
एपीओ, पीएचक्यू, जयपुर
राजस्थान

श्री जीवराज सिंह राठौड़
उप पुलिस अधीक्षक
उप निदेशक (प्रवर्तन सीमाशुल्क निवारण
बल बीकानेर) राजस्थान

श्री गिरिराज प्रसाद मीणा
पुलिस निरीक्षक
एसएसबी, जयपुर,
राजस्थान

श्री जय प्रकाश
उप पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
राजस्थान

श्री शब्बीर अहमद
सहायक उप- निरीक्षक
पुलिस दूरसंचार, जयपुर
राजस्थान

श्री घनश्याम लाल ब्रह्मण
सहायक उप- निरीक्षक
पीएस रश्मि, जिला चित्तौड़गढ़
राजस्थान

श्री लक्ष्मण राम मेघवाल
हैड कांस्टेबल
11वीं बटालियन, आरएसी (आईआर), दिल्ली
राजस्थान

श्री भगवान सिंह
हैड कांस्टेबल
पुलिस लाईंस भरतपुर
राजस्थान

श्री रतन लाल धारू
हैड कांस्टेबल
पुलिस लाईन, जोधपुर सिटी,
राजस्थान

श्री खुर्शीद अहमद
हैड कांस्टेबल
पीएस सदर, जिला झुनझुनू
राजस्थान

श्री हुकम सिंह
हैड कांस्टेबल
पुलिस लाईन, जयपुर
राजस्थान

श्री रामचन्द्र मीणा कांस्टेबल पुलिस लाइन, जयपुर सिटी राजस्थान	श्री एस कानन पुलिस निरीक्षक, आईएस त्रिची सिटी तमिलनाडु
श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी कांस्टेबल 3री बटालियन, आरएसी, बीकानेर राजस्थान	श्री ए. राजेन्द्रन पुलिस निरीक्षक एसजे और एचआर, धरमपुरी तमिलनाडु
श्री महेश कुमार सैनी कांस्टेबल एसपी कार्यालय, जिला झुनझुनू राजस्थान	श्री बी. गोविन्दसामि पुलिस निरीक्षक वी एंड एसी, त्रिची तमिलनाडु
श्री नेदुप वांगडी भूटिया पुलिस उप अधीक्षक आईआर बटालियन, नई दिल्ली सिक्किम	श्री के. कणन पुलिस निरीक्षक, वी एंड एसी, नगरकोईल, कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु
श्री पी रामकृष्णन् अपर पुलिस अधीक्षक एसआईटी, सीबी सीआईडी कोयम्बटूर तमिलनाडु	श्री पी. परमसामी पुलिस निरीक्षक वी एंड एसी विशेष जांच प्रकोष्ठ, चेन्नई तमिलनाडु
श्री डी चन्द्राबसु अपर पुलिस अधीक्षक सीबी सीआईडी, मैट्रो, चेन्नई तमिलनाडु	श्री ई. वैकटेशन पुलिस निरीक्षक वी एंड एसी, कुड्डालोर तमिलनाडु
श्री एम करुणानिधि अपर पुलिस अधीक्षक टीएनपीए, चेन्नई तमिलनाडु	श्री एम धनशेखरन उप पुलिस निरीक्षक सशस्त्र आरक्षी, रामनाथपुरम तमिलनाडु
श्री एस बालू उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम सैल सीबी सीआईडी, चेन्नई तमिलनाडु	श्री बरूण बैद्य सूबेदार/जीडी कामांडेंट का कार्यालय, आर के नगर त्रिपुरा पश्चिम, त्रिपुरा
श्री टी. अशोक सहायक पुलिस आयुक्त, आई एस सुरक्षा, उपनगर, चेन्नई तमिलनाडु	श्री कामाख्या रंजन दास हैड कांस्टेबल यातायात यूनिट, अगरतला त्रिपुरा

श्री रिजवान अहमद
अपर महानिदेशक, एचआर,
लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री प्रेम चंद मीणा
उप महानिरीक्षक
वाराणसी
उत्तर प्रदेश

श्री एस बी शिरदकर राव
उप महानिरीक्षक
सीआईएसएफ, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
उत्तर प्रदेश

श्री केशव सरण पिप्पिल
पुलिस अधीक्षक
कानपुर देहात
उत्तर प्रदेश

श्री राजेन्द्र पाल सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
पीटीसी मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री भवन सिंह गरबियाल
उप पुलिस अधीक्षक
जिला-लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री शंकर दत्त शुक्ला
उप पुलिस अधीक्षक
जिला -इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री चन्द्रसेन
उप पुलिस अधीक्षक
जिला. बदायूं
उत्तर प्रदेश

श्री वेद पाल सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
पीसीएल गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री सोहन पाल वाष्ण्य
उप पुलिस अधीक्षक
38 बटालियन पीएसी अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री परमहंस यादव
उप पुलिस अधीक्षक
सीबी सीआईडी, मुख्यालय लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री सरजीत सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
जिला-फैजाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री आनंद वीर सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
जिला . औरैया
उत्तर प्रदेश

श्री ओम शंकर शुक्ला
उप पुलिस अधीक्षक
पीएचक्यू, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री जीव धन राम
उप पुलिस अधीक्षक
जिला. अंबेडकर नगर
उत्तर प्रदेश

श्री सुशील कुमार कनौजिया
उप पुलिस अधीक्षक
जिला. कुशी नगर
उत्तर प्रदेश

श्री महमूद अहमद
प्लाटून कमांडर
11वीं बटालियन पीएसी, सीतापुर
उत्तर प्रदेश

श्री उमेश चन्द मिश्रा
उपनिरीक्षक
एलआईयू, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री रविन्द्र नाथ सिंह
प्लाटून कमांडर
27वीं बटालियन पीएसी, सीतापुर
उत्तर प्रदेश

श्री सुरेन्द्र नाथ पांडे
प्लाटून कमांडर
35वीं बटालियन पीएसी, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री राम सुरेश यादव
हैड कांस्टेबल
सतर्कता स्थापना, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री चन्द्र देव यादव
प्लाटून कमांडर
25 बटालियन पीएसी, रायबरेली
उत्तर प्रदेश

श्री सिरोमणि सिंह
हैड कांस्टेबल
45 बटालियन पीएसी, अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री इंद्र पाल
कांस्टेबल
पुलिस लाईन, हरदोई
उत्तर प्रदेश

श्री दुलम सिंह यादव
कांस्टेबल
जिला- मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश

श्री सोमवीर सिंह
निरीक्षक
जिला -बागपत
उत्तर प्रदेश

श्री सत्य राम यादव
कम्पनी कमांडर
43 बटालियन पीएसी, एटा
उत्तर प्रदेश

श्री ओम प्रकाश मिश्रा
कांस्टेबल
जिला- खीरी
उत्तर प्रदेश

श्री मदन सिंह
आरक्षी निरीक्षक
जिला- सहारनपुर
उत्तर प्रदेश

श्री लखन सिंह
कांस्टेबल
जिला- बरेली
उत्तर प्रदेश

श्री रवीन्द्र नाथ पांडे
कांस्टेबल
जिला- गोरखपुर
उत्तर प्रदेश

श्री अनिल कुमार सिंह
उप -निरीक्षक
सीबी सीआईडी हेडक्वाटर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री ओम प्रकाश दुबे
हैड आपरेटर
जिला- जौनपुर
उत्तर प्रदेश

श्री शिव बालक यादव
कांस्टेबल
जिला -हरदोई
उत्तर प्रदेश

श्री तारा दत्त वैला
उप पुलिस अधीक्षक
सर्कल कोटद्वार, पौड़ी
उत्तराखंड

श्री संजीव कुमार कौशिक
निरीक्षक
आसूचना मुख्यालय, देहरादून
उत्तराखंड

श्री हयात सिंह कठैत
हेड कांस्टेबल
बागेश्वर
उत्तराखंड

श्री प्रदीप कुमार सान्याल
संयुक्त पुलिस आयुक्त
कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री जग मोहन
विशेष पुलिस महानिरीक्षक
बर्दवान रेंज, चिन्सुरा, जिला हुगली
पश्चिम बंगाल

श्री कार्तिक चंद्र तिवारी
उपनिरीक्षक
सतर्कता आयोग, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री अभ्रान्त बंधु मजुमदार
पुलिस निरीक्षक
18, लाल बाजार, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री भालेनटाईन राणा
सहायक उप- निरीक्षक
एसएलजी ग्रुप, सिलीगुडी, जिला दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल

श्री मानिक कुमार मंडल
कांस्टेबल
चंदनगौरे पीबीएक्स
पश्चिम बंगाल

श्री बेनुकर मुखेपाक्षय
उप पुलिस निरीक्षक
पीओ-सूरी, जिला बीरभूम
पश्चिम बंगाल

श्री बिकास कुमार दे
उपनिरीक्षक
दक्षिण 24 परगना
पश्चिम बंगाल

श्री निखिल नारायण साहा
सहायक उप- निरीक्षक
राज्य सशस्त्र पुलिस, 3 बटालियन, बैरकपुर
पश्चिम बंगाल

श्री बिनद कुमार
कांस्टेबल
सिलीगुडी यातायात
पश्चिम बंगाल

श्री स्वपन कुमार बोस
सशस्त्र सहायक उप- निरीक्षक
राज्य सशस्त्र पुलिस, 6 बटालियन,
उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल

श्री तपन कान्ति राय
कांस्टेबल
तीतागढ़ पीएस नार्थ 24 परगना
पश्चिम बंगाल

श्री रतन कुमार भैमिक
कांस्टेबल
एस ओ जी सेक्शन सीआईडी,
पश्चिम बंगाल

श्री नित्य पद मुखार्जी
कांस्टेबल
विशेष शाखा, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री गैर मजुमदार
सहायक उप- निरीक्षक
सीआईडी, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री के. मोहम्मद बसीर
निरीक्षक
पीएचक्यू, पोर्ट ब्लेयर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

श्री उदयपाल सिंह
उपनिरीक्षक
प्रभारी पीपी बापू धाम सेक्टर-26
चंडीगढ़

श्री रणवीर सिंह
पुलिस अधीक्षक
पीएचक्यू, लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र कावारती
लक्षद्वीप

श्री एस रामराजू
पुलिस अधीक्षक
सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी
पुडुचेरी

श्री जे. राजा किरूबकरन
निरीक्षक
सिग्मा सुरक्षा
पुडुचेरी

श्री मोहम्मद अजीजुल हक
सुबेदार मेजर
मुख्यालय 21 सेक्टर, त्रिपुरा रेंज, द्वारा 99 एपीओ
असम राईफल्स

श्री फूल बहादुर गुरुंग
सुबेदार
14 एआर, द्वारा 99 एपीओ
असम राईफल्स

श्री नंदन सिंह
सुबेदार
तेलियामुरा, जिला - पश्चिम त्रिपुरा
असम राईफल्स

श्री ऐत बहादुर छेत्री
सुबेदार
तेलियामुरा, जिला पश्चिम त्रिपुरा,
असम राईफल्स

श्री चेत बहादुर थापा
सुबेदार
बल मुख्यालय, शिलोंग-11
असम राईफल्स

श्री जगन नाथ सिंह
सुबेदार क्लर्क
बल मुख्यालय, शिलोंग-11
असम राईफल्स

श्री रखल धर
अधीक्षक
बल मुख्यालय, शिलोंग-11
असम राईफल्स

श्री बीर बहादुर छेत्री
कमांडेंट
एडीएम सपोर्ट यूनिट, शिलोंग
असम राईफल्स

श्री हंस राम
सुबेदार मेजर
एडीएम सपोर्ट यूनिट, शिलोंग
असम राईफल्स

श्री महावीर सिंह सिलेन
सेकेन्ड -इन कमांड
मुख्यालय 25 सेक्टर, द्वारा 99 एपीओ
असम राईफल्स

श्री भीम कुमार साकी
सुबेदार मेजर
25 एआर, द्वारा 99 एपीओ
असम राईफल्स

श्री पृथ्वी राज सिंह
सुबेदार
25 एआर, द्वारा 99 एपीओ
असम राईफल्स

श्री प्रेम चरण राजबगंशी
सुबेदार
32 एआर, द्वारा 99 एपीओ, जालुकी (नागालैंड)
असम राईफल्स

श्री ओंकार चन्द डोगरा
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू कुपवाडा, जे एण्ड के द्वारा 56 ए पी ओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरजीत सिंह डोगरा
उप महानिरीक्षक (प्रोव.)
एफटीआर मुख्यालय गांधी नगर, गुजरात
सीमा सुरक्षा बल

श्री विष्णु दत्त शर्मा
उप महानिरीक्षक (जी)
एफटीआर मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात
सीमा सुरक्षा बल

श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी
कमांडेंट
बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर ग्वालियर
मध्य प्रदेश
सीमा सुरक्षा बल

श्री रणजीत सिंह राठौर
कमांडेंट
44 बटालियन, श्रीगंगानगर राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री प्रताप सिंह चंदेल
कमांडेंट
एसएचक्यू बाड़मेर(राजस्थान)
सीमा सुरक्षा बल

श्री बिशन सिंह पटियाल
कमांडेंट
173 बटालियन श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
सीमा सुरक्षा बल

श्री उल्लियाडा मुथन्ना सुब्रह्मणि
कमांडेंट
82 बटालियन करहल्ली पी.ओ, बंगलौर
कर्नाटक
सीमा सुरक्षा बल

श्री मन मोहन सिंह पवार
उप कमांडेंट
4 बटालियन, सांबा द्वारा 56 ए पी ओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री के.एम. मुखोपाध्याय
उप कमांडेंट
1 बटालियन, पश्चिम गारो हिल्स, तुरा मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री प्रीतम सिंह सक्सेना
उप कमांडेंट
एसटीएस, नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल

श्री शशीकांत शर्मा
उप कमांडेंट
66 बटालियन, डाबला जैसलमेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुखेन्द्र सिंह राठौर
उप कमांडेंट
107 बटालियन, दांतीवाड़ा, गुजरात
सीमा सुरक्षा बल

श्री भैया प्रभात कुमार
उप कमांडेंट
122 बटालियन, द्वारा 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री वेद प्रकाश शर्मा
सहायक कमांडेंट
81 बटालियन, पोखरण, जैसलमेर राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री पदमेन्द्र सिंह रावत
सहायक कमांडेंट (मिन)
एएम एफटीआर, शिलोंग मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री जंवेद सिंह
निरीक्षक
36 बटालियन, नादिया, पश्चिम बंगाल
सीमा सुरक्षा बल

श्री बहादुर सिंह खोलिया
निरीक्षक
173 बटालियन, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
सीमा सुरक्षा बल

श्री साधु राम
निरीक्षक
75 बटालियन, श्रीगंगानगर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री सज्जन सिंह
निरीक्षक
43 बटालियन, फिरोजपुर, पंजाब
सीमा सुरक्षा बल

श्री गोपाल बहादुर राणा निरीक्षक 75 बटालियन, श्रीगंगानगर, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल	श्री दिलबाग सिंह उपनिरीक्षक(आरएम) एफटीआर मुख्यालय, जम्मू. सीमा सुरक्षा बल
श्री बिशेश्वर रॉय निरीक्षक 25 बटालियन, छावला कैम्प नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल	श्री नरेन्द्र पाल शर्मा उपनिरीक्षक (साईफर) 43 बटालियन, फिरोजपुर (पंजाब) सीमा सुरक्षा बल
श्री कैलाश चन्द भट्ट निरीक्षक (टेक.) 35 बटालियन, पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय सीमा सुरक्षा बल	श्री सुरेश सिंह यादव सहायक उप- निरीक्षक (फार्मासिस्ट) कम्पोजिट हास्पिटल, टेकनपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश सीमा सुरक्षा बल
श्री हयात सिंह मेहरा निरीक्षक(मिन) एफटीआर मुख्यालय अगरतला, त्रिपुरा सीमा सुरक्षा बल	श्री देबा प्रसाद मंडल हैड कांस्टेबल 109 बटालियन, गुरदास पुर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल
श्री ओसेफ वर्गिस निरीक्षक जी डीटीई, बल मुख्यालय, नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल	श्री स्कीन्दर नाथ हैड कांस्टेबल एसटीसी श्रीनगर कश्मीर सीमा सुरक्षा बल
श्री मातवर सिंह उपनिरीक्षक 74 बटालियन, बरेली सीमा सुरक्षा बल	श्री शहाबुद्दीन कांस्टेबल (दर्जी) 103 बटालियन, किशनगंज, बिहार सीमा सुरक्षा बल
श्री धरमवीर यादव उपनिरीक्षक 72 बटालियन, फिरोजपुर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल	श्री मुन्नर राम मोची एसटीसी येलाहाकां बंगलुरु कर्नाटक सीमा सुरक्षा बल
श्री मदन सिंह उपनिरीक्षक 140 बटालियन, चुरचांदपुर, मणिपुर सीमा सुरक्षा बल	श्री राजेन्द्र प्रसाद ठाकुर नाई 194 बटालियन, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा बल
श्री कुलदीप कुमार पठानिया उपनिरीक्षक 85 बटालियन, पोखरण, जैसलमेर सीमा सुरक्षा बल	श्री मान सिंह गुरूंग रसोईया 96 बटालियन, कछार, असम सीमा सुरक्षा बल

श्री सोढी सिंह
सफाई कर्मचारी
66 बटालियन जैसलमेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री दयाल सिंह
उप कमांडेंट
58 बटालियन, नौशेरा, द्वारा 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री अवतार सिंह
सहायक कमांडेंट
199 बटालियन, फिरोजपुर, पंजाब
सीमा सुरक्षा बल

श्री बलदेव सिंह
सहायक कमांडेंट
7 बटालियन, फिरोजपुर, पंजाब
सीमा सुरक्षा बल

श्री हेमंत प्रियदर्शी
पुलिस उप महानिरीक्षक
एसीबी, भोपाल
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री जकी अहमद
पुलिस उप महानिरीक्षक
एससी-III, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एन एम सिंह
पुलिस अधीक्षक
एसीबी, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हरी सिंह गुरावारिया
अपर पुलिस अधीक्षक
एससी-III, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री घनश्याम राय
उप पुलिस अधीक्षक
बीएस एंड एफसी, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री संजय केवलकृष्ण सरीन
उप पुलिस अधीक्षक
बीएस एंड एफसी, मुम्बई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री कलाईमणि गोपालन
पुलिस निरीक्षक
एसीबी, चेन्नई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री कुमारेसन कृष्णास्वामी
निरीक्षक
एसीबी, चेन्नई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री मानक चंद
उपनिरीक्षक
एसीयू-IV, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री रविन्द्र कुमार
उपनिरीक्षक
एसी-III, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री बंशी धर तिवारी
सहायक उप- निरीक्षक
एमडीएमए, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री दिलबाग खत्री
हैड कांस्टेबल
ईओयू I दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री रावेल सिंह
हैड कांस्टेबल
एस यू दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हरपाल सिंह
कांस्टेबल
नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री के. अब्दुल रशीद
कांस्टेबल
एसीबी कोचीन
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सतवीर सिंधु
उप महानिरीक्षक
ओएनजीसी नजीरा, असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री उद्येन बनर्जी
उप महानिरीक्षक
आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री विमल सेन जैन
उप कमांडेंट
जेजीपीपी झनूर गुजरात
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अशोक कुमार शर्मा
उप कमांडेंट
ओएनजीसी मेहसाणा, गुजरात
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री के.एस. शशिधरन
हैड कांस्टेबल
हैदराबाद हवाई अड्डा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री गौरधनभाई परमार
हैड कांस्टेबल
आरसीएफएल थाल रायगढ़, महाराष्ट्र
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री छोटू राम
हैड कांस्टेबल
गेल विजयपुर गुना, मध्य प्रदेश
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राजबीर सिंह
हैड कांस्टेबल
आईएसपी बर्नपुर, पश्चिम बंगाल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री महेश नंद जोशी
हैड कांस्टेबल
सीजीबीएस, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राजेन्द्र सिंह
हैड कांस्टेबल
वीपीटी विजाग
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री पाल सिंह
हैड कांस्टेबल
सीएनपी नासिक, महाराष्ट्र
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री संतोष कुमार पहाड़ी
हैड कांस्टेबल
डीएसपी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राम शंकर नंदा
हैड कांस्टेबल
एचडीसी हल्दिया पश्चिम बंगाल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री के. रवि
हैड कांस्टेबल
ओएनजीसी नजीरा, असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री दिम्बेश्वर गोगोई
हैड कांस्टेबल
ओ आई एल दुलियाजान असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री ऋषि कुमार पांडे
हैड कांस्टेबल
अहमदाबाद हवाई अड्डा
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री तपन दत्ता चौधरी
हैड कांस्टेबल
एसटीपीपी सिंहाद्री
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री जयनारायण महापात्र

हैड कांस्टेबल

एनआईएसए हैदराबाद

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नलिन प्रभात

पुलिस उप महानिरीक्षक

मुख्यालय, दक्षिण कश्मीर, ओपीएस रेंज,

द्वारा 56 एपीओ, जम्मू और कश्मीर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रमोद कुमार पाण्डे

पुलिस उप महानिरीक्षक

भोपाल रेंज, मुख्यालय बंगरसिया भोपाल

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मनोज कुमार दुबे

पुलिस उप महानिरीक्षक

रेंज कार्यालय, बिजनौर, लखनऊ

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रविदीप सिंह साही

पुलिस उप महानिरीक्षक(ओपीएस)

बस्तर, दांतेवाड़ा, (सीजी)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राकेश कुमार यादव

पुलिस उप महानिरीक्षक

ग्रुप सेन्टर, रामबाग, श्रीनगर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कमल कांत शर्मा

पुलिस उप महानिरीक्षक

जीसी, बंगरसिया, भोपाल, मध्य प्रदेश

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री विक्रम सहगल

महाप्रबंधक (सुरक्षा)

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री संग्राम केशरी मोहंती

पुलिस उप महानिरीक्षक

ग्रुप सेन्टर, भुवनेश्वर, उड़ीसा

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गिरि प्रसाद वैकट हनुमा गणुगपति

पुलिस उप महानिरीक्षक

आई जी पी का कार्यालय, लखनऊ

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आर.एन.एस. बहाद

पुलिस उप महानिरीक्षक(ओपीएस)

बोंगईगांव, असम

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

पुलिस उप महानिरीक्षक

आईजीपी का कार्यालय, श्रीनगर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री नरेन्द्र कुमार भारद्वाज

पुलिस उप महानिरीक्षक

आईजीपी का कार्यालय, दक्षिण सेक्टर, हैदराबाद

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मूल चंद पंवार

पुलिस उप महानिरीक्षक

आईजीपी का कार्यालय, त्रिपुरा सेक्टर, अगरतला

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शेखर तनिकाचलम

पुलिस उप महानिरीक्षक

ग्रुप सेन्टर, पल्लीपुरम, त्रिवेन्द्रम

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम गोपाल राय भट

पुलिस उप महानिरीक्षक

सिलीगुड़ी

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राधा मोहन मीना

पुलिस उप महानिरीक्षक

नीमच (मध्य प्रदेश)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशोक कुमार सिन्हा

पुलिस उप महानिरीक्षक

कम्पोजिट हास्पिटल, अजमेर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अरूण कुमार सिन्हा
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी)
153 बटालियन, पीओ-भैरिया, पूर्वी चम्पारण
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री महेश कुमार
कमांडेंट
पहली एसआईजी बटालियन, झरोदाकलां, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दिवान सिंह नेगी
कमांडेंट
आरटीसी, धरमपुर, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गिरीश कुमार
कमांडेंट
13 बटालियन, अमृतसर, पंजाब
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री संजीव ढुंडिया
कमांडेंट
195 बटालियन, बारासूर, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सैयद मोहम्मद हसनैन
कमांडेंट
सीटीसी (टी एंड आईटी), धुव, रांची, झारखंड
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री विवेक चतुर्वेदी
कमांडेंट
डीआईजीपी का कार्यालय, इलाहाबाद
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुभाष दामले
कमांडेंट
डीआईजीपी का कार्यालय, येलहंका, बैंगलौर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जलदीप सिंह कनावत
सेकेन्ड इन कमान्ड
90 बटालियन, 56 एपीओ (जम्मू और कश्मीर)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री विजय कुमार वनियाबथ
उप कमांडेंट
ग्रुप सेन्टर, पल्लीपुरम, त्रिवेन्द्रम, केरल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बसंत सिंह गुलेरिया
उप कमांडेंट
18 बटालियन, कुलगाम जे एण्ड के
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एन आर नायर
संयुक्त सहायक निदेशक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सूरज भान
सहायक कमांडेंट
ग्रुप सेन्टर चिलौदा रोड, गांधीनगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रेवत सिंह
अनुभाग अधिकारी
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री थुन्डियिल चाको ईशो
प्रशासनिक अधिकारी
ग्रुप सेन्टर, बंतलब (जम्मू)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरजीत सिंह
निरीक्षक
121 बटालियन, कठुवा (जम्मू और कश्मीर)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मूल चंद यादव
निरीक्षक
81 बटालियन, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री तरसेम लाल कहोल
निरीक्षक/स्टेनो
आईजीपी का कार्यालय, विशेष सेक्टर, दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आनंद सिंह
उप -निरीक्षक
ग्रुप सेन्टर, केशोगिरी-पीओ-हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जोगिन्दर दास
उप -निरीक्षक
जीसी, जालंधर, पंजाब
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुभा चंद
उप -निरीक्षक
185 बटालियन, त्राल, पुलवामा
(जम्मू और कश्मीर), द्वारा 56 एपीओ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री युगल किशोर सिंह
उप -निरीक्षक
41 बटालियन, बंगरसिया, भोपाल (मध्य प्रदेश)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जगत सिंह
उप -निरीक्षक
आरटीसी, धरमपुर, जिला-सोलन हिमाचल प्रदेश
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अमरीक सिंह
उप -निरीक्षक
सीटीसी, नीमच, मध्य प्रदेश
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरजी राम
उप -निरीक्षक
सीटीसी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री चीडि मुरली कृष्णा
हैड कांस्टेबल
जीसी, केशोगिरी -पीओ, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कप्तान सिंह
हैड कांस्टेबल
33 बटालियन, गंग्याल, जम्मू
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम पाल
कांस्टेबल/दफ्तरी
आईजीपी का कार्यालय (ओपीएस)
कश्मीर, द्वारा 56 एपीओ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सकल देव
धोबी
सीटीसी, नीमच, मध्य प्रदेश
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री भीखम राम
धोबी
16 बटालियन सिविल लाईन, मथुरा, उत्तर प्रदेश
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री तुलाराम शेंडे
सफाई कर्मचारी
ग्रुप सेन्टर, नागपुर महाराष्ट्र
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कमलापति
रसोईया
ग्रुप सेन्टर, आवडी चेन्नई, तमिलनाडु
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रितविक रुद्र
उपनिदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

डा. महेश संतराम दीक्षित
उपनिदेशक
हैदराबाद
गृह मंत्रालय

श्री शिवाजी सिन्हा
सहायक निदेशक
पटना
गृह मंत्रालय

श्री टी मनोहरन
सहायक निदेशक
चेन्नई
गृह मंत्रालय

श्री राजीव गुप्ता
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री योगेश कुमार यादव
सहायक निदेशक/तकनीकी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री के के नारायणन नायर
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री पुनीत देव मिश्रा
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
जयपुर
गृह मंत्रालय

श्री विजय कुमार
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
श्रीनगर
गृह मंत्रालय

श्री बलबीर सिंह मंजू
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
चंडीगढ़
गृह मंत्रालय

श्री नरेन्द्र कुमार वाधवानी
निजी सचिव
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री अशोक कुमार सरकार
अनुभाग अधिकारी
ईटानगर
गृह मंत्रालय

श्री बिमल कुमार
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-I/जी
पटना
गृह मंत्रालय

श्री सोहन सिंह
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-I/जी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री स्वपन कुमार लाला
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-I/जी
कोलकाता
गृह मंत्रालय

श्री आशीष श्रीवास्तव
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-I/जी
रायपुर
गृह मंत्रालय

श्री सुरेन्द्रन के पिल्ले
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-II/जी
तिरुवनंतपुरम
गृह मंत्रालय

श्री कुंदन लाल बजाज
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-II/जी
जम्मू
गृह मंत्रालय

श्री दलबीर सिंह
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी ग्रेड-I/जी
अमृतसर
गृह मंत्रालय

श्री देव कांत झा
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी ग्रेड-I/डब्ल्यू टी
गुवाहाटी
गृह मंत्रालय

श्री सुनील रंजन राय
कमांडेंट
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री भंवर सिंह
कमांडेंट
12वीं बटालियन, मतली(उत्तराखंड)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री प्रेम सिंह कमांडेंट 19वीं बटालियन, बोंदा, सरहन, हिमाचल प्रदेश भारत तिब्बत सीमा पुलिस	श्री सी टी रवि सहायक कमांडर -I बल मुख्यालय, नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
श्रीमती पशुपति देवी रैकवाल सहायक कमांडेंट सीआरओ, नई दिल्ली भारत तिब्बत सीमा पुलिस	श्री सईचोन चोंगलोई सहायक कमांडर -I/जीडी 11 एसआरजी, गुडगांव, एचआर-51 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद
श्री दर्शन लाल जोशी सुबेदार मेजर/स्टेनो सीमाद्वार देहरादून, उत्तराखण्ड भारत तिब्बत सीमा पुलिस	श्री अनिल कुमार नेगी उप महानिरीक्षक एसएचक्यू, बोंगईगांव, असम सशस्त्र सीमा बल
श्री यशपाल सिंह निरीक्षक 11वीं बटालियन, पेगोंग, उत्तरी सिक्किम, मंगन भारत तिब्बत सीमा पुलिस	श्री राजवंत सिंह खरयाल कमांडेंट टीसी सपरी सशस्त्र सीमा बल
श्री जोगिन्दर सिंह उप -निरीक्षक बीटीसी भानु शिविर (हरियाणा) भारत तिब्बत सीमा पुलिस	श्री केशव चंद्र डोभाल स्टाफ अधिकारी (प्रशासन) एसएचक्यू, रानीखेत सशस्त्र सीमा बल
श्री माधवा नंद जोशी कांस्टेबल/रसोईया बल मुख्यालय, नई दिल्ली भारत तिब्बत सीमा पुलिस	श्री जानकी नाथ दासगुप्ता सहायक कमांडेंट टीसी सलोनीबाड़ी सशस्त्र सीमा बल
श्री अजय सिंह ग्रुप कमांडर मनिसर, गुडगांव राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	श्री बोध राज निरीक्षक (जीडी) 41वीं बटालियन गुवाहाटी सशस्त्र सीमा बल
श्री सेलडो लांगचिन खुप ग्रुप कमांडर बल मुख्यालय, नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	श्री प्रेम सिंह उपनिरीक्षक (जीडी) 41वीं बटालियन गुवाहाटी सशस्त्र सीमा बल
श्री ओम प्रकाश सहायक कमांडर -I/एम बल मुख्यालय, नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	श्री परिमल चंद्र भट्टाचार्य लेखा अधिकारी बल मुख्यालय, दिल्ली सशस्त्र सीमा बल

श्री भुवन चंद्र जोशी
निजी सचिव
एसएचक्यू, गोरखपुर
सशस्त्र सीमा बल

श्री ओम प्रकाश मैनी
सहायक उप- निरीक्षक /मिन
टीसी सपरी
सशस्त्र सीमा बल

श्री अविचल
सहायक महानिरीक्षक
बल मुख्यालय नई दिल्ली
विशेष संरक्षण ग्रुप

श्री के एम यादव
सहायक महानिरीक्षक
बल मुख्यालय नई दिल्ली
विशेष संरक्षण ग्रुप

श्री नंद किशोर पांडे
वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी
बल मुख्यालय नई दिल्ली
विशेष संरक्षण ग्रुप

श्री एस. श्रीनिवासन
वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी (एम)
बल मुख्यालय नई दिल्ली
विशेष संरक्षण ग्रुप

श्री धर्मेन्द्र कुमार
सुरक्षा अधिकारी -I
बल मुख्यालय नई दिल्ली
विशेष संरक्षण ग्रुप

श्री जयंत कुमार पटनायक
सुरक्षा अधिकारी-I(तकनीकी)
बल मुख्यालय नई दिल्ली
विशेष संरक्षण ग्रुप

श्री लछमण राय
उपनिरीक्षक
उमियम
उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी

डा. तपन चक्रवर्ती
सहायक निदेशक
नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री विरेन्द्र सिंह कंवर
उप पुलिस अधीक्षक
केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, चंडीगढ़
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री टी बी जे एस राजप्पा
उप निदेशक
नई दिल्ली
समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस

श्री राम शरण वर्मा
उप निदेशक
नई दिल्ली
समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस

श्री कुलवंत सिंह
हैड कांस्टेबल/चालक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री राजवीर सिंह
निरीक्षक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

श्री आर एन रेड्डी
हैड कांस्टेबल
हैदराबाद
एसवीपी एन.पी.ए

श्री एस के बरिक
हैड कांस्टेबल
हैदराबाद
एसवीपी एन.पी.ए

श्री एस पांडु रंगैया
हैड कांस्टेबल
हैदराबाद
एसवीपी एन.पी.ए

श्री पी यू मथई
सुरक्षा अधिकारी
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, मुम्बई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय

श्री वितुल कुमार
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
चंडीगढ़
विदेश मंत्रालय

डा. सुभाष चंद्र साहू
उप महानिरीक्षक
रेल भवन, नई दिल्ली, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री उदय शंकर शुक्ल
उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त
मुम्बई, रेलवे सुरक्षा बल, रेल मंत्रालय

श्री अतुल पाठक
वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त
मुम्बई, रेलवे संरक्षण बल
रेल मंत्रालय

श्री रामफल पचरवाल
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त
इज्जत नगर रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री डी डेनियल जैसन दास
सहायक सुरक्षा आयुक्त
चेन्नई, रेलवे संरक्षण बल
रेल मंत्रालय

श्री पंकज कृष्णा हलगेकर
निरीक्षक
दादर, मुम्बई, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री कृष्णन भास्करन
निरीक्षक
आई सी एफ, चेन्नई, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री मोहम्मद अकबर
निरीक्षक
6 बटालियन, आर पी एस एफ सुरक्षा
रेल मंत्रालय

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
निरीक्षक
जबलपुर प्रभाग, पश्चिमी केन्द्रीय रेलवे
रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री राजेन्द्र मांझी
निरीक्षक
5वीं बटालियन, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री सी के हरिलाल
उपनिरीक्षक
आई सी एफ, चेन्नई, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री मोहम्मद मुस्तफा
उप - निरीक्षक
मैसूर, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री धरम पाल
सहायक उपनिरीक्षक
रतलाम, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री नुन्ना वेंकट सुब्बा राव
सहायक उप- निरीक्षक / ड्राइवर
विजयवाड़ा, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

श्री लाल सिंह
हैड कांस्टेबल
6 बटालियन, दिल्ली, रेलवे सुरक्षा बल
रेल मंत्रालय

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक
प्रदान किए जाने के संबंध में लागू नियमों के नियम
4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2009

सं. 5/15/2008- लेदर- केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई एल डी पी) के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये (तीन सौ करोड़ रुपए) के आवंटन से “लेदर पार्कों का विकास” शीर्षक से एक उपयोजना को अनुमोदन दिया है। इस योजना का लक्ष्य उच्च विकास संभावना वाले उन औद्योगिक क्लस्टर/स्थापना स्थलों के लिए है जिन्हें विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करके सामरिक हस्तक्षेपों की जरूरत होती है। परियोजना लागत में लेदर पार्कों की जरूरतों पर निर्भर रहते हुए सहायक कार्यकलापों के लिए सामान्य अवसंरचना तथा बिल्डिंग सम्मिलित होंगे। स्थानीय जरूरतों के अनुरूप लेदर पार्कों की स्थापना करने में लचीलापन होगा। इस योजना में 40 करोड़ रुपये प्रति पार्क की अधिकतम सीमा की शर्त के अन्तर्गत लेदर पार्कों की स्थापना हेतु अनुदान के लिए व्यवस्था है। लेदर पार्कों में ये सम्मिलित होंगे: टेनिंग पार्क, लेदर उत्पाद पार्क, चमड़ा क्षेत्र में प्रयोग की गई मशीनों का विनिर्माण करने के लिए मशीनरी पार्क तथा टेनरीज और उत्पाद इकाइयों दोनों के लिए एकीकृत पार्क हाउसिंग।

2. इस योजना के अन्तर्गत लाभ उद्यमियों के समूह द्वारा बनाये गये एसपीवी (कानूनी रूप से स्वतन्त्र न्यूनतम 7 कंपनियों) को उपलब्ध होंगे जो लेदर टेनिंग, चमड़ा तथा गैर चमड़ा वस्तुओं और संघटकों के विनिर्माण तथा चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए अन्य कार्यकलापों में लगे हुए हैं जिनका आशय प्रस्तावित पार्क में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का है। प्रस्तावित पार्क के विकास तथा प्रबंधन के लिए ऐसे उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजना विशिष्ट स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी), उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्तकर्ता होगा। उद्यमियों का अर्थात् उसकी कंपनी का कुल कारोबार कम से कम 1 करोड़ का होगा तथा एसपीवी बनाने वाले 7 प्रवर्तकों का कुल संयुक्त कारोबार कम से कम 10 करोड़ रुपये होगा। सरकार एक ऐसी एजेन्सी को सेवा में लगायेगी जिसे योजना के क्रियान्वयन में सलाहकार के रूप में परियोजना को चालू करने हेतु अनुमोदन के चरण से औद्योगिक क्लस्टर अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करने, वित्तीयन करने तथा निष्पादन करने में स्थापित अनुभव हो। यह एजेन्सी उक्त योजना के अन्तर्गत परियोजना की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की सहायता करेगी।

3. यह उप-योजना सम्पूर्ण भारत में लागू है। उक्त योजना के लिए दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छुक चमड़ा उद्यमी उक्त योजना के तहत दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट प्रारम्भिक प्रस्ताव अनुमोदन के लिए सीधे इस विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह विभाग प्रस्ताव को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमोदित करेगा।

फरीदा एम नायक
अवर सचिव

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)**

नई दिल्ली-110 001 दिनांक : 04 दिसम्बर, 2009

सं. 1/1/2009-पीडी

सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सोसाइटी का दिनांक 26 जून, 2009 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगे:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | भारत के माननीय प्रधानमंत्री
(डॉ. मनमोहन सिंह)
प्रधानमंत्री कार्यालय
कमरा सं. 148-बी, साउथ ब्लॉक
नई दिल्ली-110 011 | अध्यक्ष |
| 2. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पृथ्वीराज चव्हाण)
प्रधानमंत्री कार्यालय
साउथ ब्लॉक
नई दिल्ली-110 011 | उपाध्यक्ष |
| 3. | वित्त मंत्री
(श्री प्रणब मुखर्जी)
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 4. | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री आनंद शर्मा)
उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110 011 | सदस्य |
| 5. | श्री कपिल सिब्बल
मानव संसाधन विकास मंत्री
शास्त्री भवन,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली-110 001 | सदस्य |
| 6. | डॉ. के. कस्तूरीरंगन
सदस्य, योजना आयोग
योजना भवन,
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |

- | | | |
|-----|---|-------|
| 7. | डॉ. एस. बैनर्जी
अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग
अणुशक्ति भवन
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग
मुम्बई - 400 001 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 8. | डॉ. अशोक झुनझुनवाला
प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी विभाग
ईएसबी-331-बी
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास
चेन्नै - 600 036 (तमिलनाडु) | सदस्य |
| 9. | श्री ओमप्रकाश भट्ट
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक भवन
मुम्बई - 400 021 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 10. | डॉ. आनंद जी. महिन्द्रा
उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ग्रुप
महिन्द्रा टॉवर्स, जीएम भोसले मार्ग
वर्ली
मुम्बई - 400 018 | सदस्य |
| 11. | सुश्री चंदा डी. कोचर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
9वीं मंजिल, साउथ टावर्स, आईसीआईसीआई टावर्स
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व)
मुम्बई - 400 051 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 12. | श्री सार्धक बहुरिया
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट ऑफिस
3079/3, जेबी टीटो मार्ग
सादिक नगर,
नई दिल्ली - 110 049 | सदस्य |
| 13. | डॉ. देश बन्धु गुप्ता
अध्यक्ष
ल्यूपिन लिमिटेड
बी/4, लक्ष्मी टावर्स
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बान्द्रा (पश्चिम)
मुम्बई - 400 051 (महाराष्ट्र) | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|-------|
| 14. | श्री अजीम एच. प्रेमजी
अध्यक्ष
विप्रो लिमिटेड
डोडाकनेली, सरजापुर रोड
बेंगलूर - 560 035 | सदस्य |
| 15. | सुश्री मल्लिका श्रीनिवासन
निदेशक
ट्रेक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड
35, नुगम्बक्कम हाई रोड
नुगम्बक्कम
चेन्नै - 600 034 | सदस्य |
| 16. | प्रो. एम.एम. शर्मा, एफआरएस
पूर्व निदेशक
रसायन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विभाग
2/3, जसवन्त बाग
ए के बारेली के पीछे
वी एन पूर्व मार्ग
मुम्बई - 400 071 (महाराष्ट्र) | सदस्य |
| 17. | प्रो. एम. गौरी देवी
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर (तंत्रिका विज्ञान)
इन्स्टिट्यूट ऑव ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसिस
नई दिल्ली | सदस्य |
| 18. | श्री अशोक कुमार
सचिव
डिपार्टमेंट ऑव फार्मास्यूटिकल्स
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 19. | श्री अजय शंकर
सचिव
औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग
कमरा नं. 157, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110 011 | सदस्य |
| 20. | श्री आर. चन्द्रशेखर
सचिव
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन
6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110 003 | सदस्य |

21. डॉ. शैलेश नायक
सचिव
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
महासागर भवन, ब्लॉक नं. 12
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110 003
- सदस्य

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के नियमों एवं विनियमों के नियम 3 (घ) के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय के निम्नांकित सदस्य शासी निकाय के सदस्य रहने तक सीएसआईआर सोसाइटी के सदस्य रहेंगे:

22. प्रो. एस. के. ब्रह्मचारी
महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन
2, रफी मार्ग
नई दिल्ली - 110 001
- पदेन-सचिव

23. सुश्री सुषमा नाथ
सचिव (व्यय)
वित्त मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001
- सदस्य

24. डॉ. चन्द्रशेखर
निदेशक
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी - 333 031 (राजस्थान)
- सदस्य

25. प्रो. सिद्धार्थ राय
निदेशक
भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान
4, राजा एस.सी. मल्लिक रोड
जादवपुर,
कोलकाता - 700 032
- सदस्य

26. सुश्री सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी
संयुक्त प्रबंध निदेशक
कॉइनेटिक इंजीनियरिंग लि. एवं
निदेशक, कॉइनेटिक मोटर कंपनी लि.
डी-1 ब्लॉक, प्लॉट सं. 18/2
एमआईडीसी चिन्चवाड
पुणे - 411 019
- सदस्य

- | | | |
|-----|---|-------|
| 27. | श्री ई. श्रीधरन
प्रबंध निदेशक
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
मैट्रो भवन
13, बाराखम्बा लेन
बाराखम्बा रोड
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 28. | डॉ. अमित मित्रा
महासचिव
फेडरेशन ऑव इंडियन चेम्बर्स ऑव कामर्स एंड इंडस्ट्री
फेडरेशन हाउस
तानसेन मार्ग
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 29. | प्रो. एम. विजयन
मानद प्रोफेसर/विशिष्ट जैवप्रौद्योगिकीविद
मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट
भारतीय विज्ञान संस्थान
बेंगलूर - 560 012 | सदस्य |
| 30. | प्रो. सुरेन्द्र प्रसाद
निदेशक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
हौजखास
नई दिल्ली - 110 016 | सदस्य |
| 31. | डॉ. टी. रामासामी
सचिव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
टेक्नोलॉजी भवन,
न्यू महरोली रोड
नई दिल्ली-110016 | सदस्य |
| 32. | डॉ. एम.के. भान
सचिव,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
ब्लॉक-2, 7वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110 003 | सदस्य |

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव (प्रशासन)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2009

सं. 37/2008 फा./सं. 2/13/2007 प्रशासन-II--राष्ट्रपति, श्री अरूण कुमार, आईईएस को 1 दिसम्बर, 2009 के अपराह्न से, अगले आदेशों के होने तक, विद्युत मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद

अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

संख्या क्यू-16012/2/2009-ईएसए (एनएलआई) : जबकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नोएडा को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि उक्त सोसाइटी के नियमों और विनियमों के नियम III में इसके गठन का प्रावधान है।

अतः, अब, उपर्युक्त सोसाइटी के नियम III के अनुसरण में और इस विषय पर पहले जारी की गयी दिनांक 4.11.2009 की अधिसूचना के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा की सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है :

नियोक्ता संगठन के प्रतिनिधि

- | | | |
|----|--|---------|
| i. | श्री के.सी. मेहरा
सी-81, साउथ एक्सटेशन, पार्ट-II,
नई दिल्ली-110049
दूरभाष:26268840, मोबाइल:9899301956
एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
1, कम्युनिटी सेंटर, जामरुदपुर,
कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048. | - सदस्य |
|----|--|---------|

कामगार संगठन के प्रतिनिधि

- | | | |
|-----|---|---------|
| ii. | श्री पी.टी. राव,
सदस्य, नेशनल एक्सीक्यूटिव,
भारतीय मजदूर संघ,
एडाकटिटल हाउस,
सस्टा टेम्पल रोड,
अलूवा-684101 (केरल),
फोन (निवास) 0484-2629344
मोबाइल:0949577811 | - सदस्य |
|-----|---|---------|

रणवीर सिंह
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2009

No. 121-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Presidents Police Medal for Distinguished Service to the under-mentioned officers:—

Shri M. Punna Rao
Inspector General of Police

CID, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri K. Jagan Mohan Reddy
Additional Superintendent of Police
Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Ramesh Kumar Tripathi
Sergeant Major
Saran District, Chapra
Bihar

Shri Arun Kumar Singh
Sergeant Major
Police Lines, Bhojpur, Ara District
Bihar

Shri Ravi Pratap Singh
Assistant Commandant
7th Bn, CAF, Bhilai
Chhattisgarh

Shri Sachchidanand Shrivastava
Joint Commissioner of Police
Police Headquarters
N.C.T. of Delhi

Shri Shankarsan Dash
Deputy Commissioner of Police
New Delhi District
N.C.T. of Delhi

Shri Vinay Veerendra Chaudhary
Senior Superintendent of Police
Goa

Shri Prakash Purshottam Pradhan
Unarmed Deputy Superintendent of Police
Porbandar District
Gujarat

Shri Paramvir Rathee
Director General of Police (CID)
Chandigarh
Haryana

Shri Ram Singh Bishnoi
Superintendent of Police
Mewat
Haryana

Shri Jog Raj Thakur
Deputy Inspector General of Police
Traffic, Tourist & Railways, Shimla
Himachal Pradesh

Shri Javaid Riyaz
Assistant Inspector General (Personnel)
Police Headquarters, Srinagar
Jammu and Kashmir

Shri G. M. Hayath
Inspector General of Police
KSRTC, Bangalore
Karnataka

Shri H. C. Kishore Chandra
Inspector General of Police
Economic Offences, Bangalore
Karnataka

Shri P. Chandrasekharan
Inspector General of Police
Thiruvananthapuram
Kerala

Shri M. R. Krishna
Inspector General of Police
Jabalpur Zone
Madhya Pradesh

Shri Keshav Chander Verma
Inspector General of Police
SAF Range, Gwalior
Madhya Pradesh

Shri Bharat Bhooshan Singh Thakur
Inspector General of Police
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri S. P. S. Yadav
Additional Director General of Police
CID Crime, M. S. Pune
Maharashtra

Shri Chandrakant Shalu Janrao
Commandant
SRPF GR VI Dhule
Maharashtra

Shri Yashwant Ramchandra Tawade
Assistant Commissioner of Police
Ghatkopar Division, Mumbai
Maharashtra

Shri Khumanthem Chandramani Singh
Commandant
7th Bn. Manipur Rifles, Khabeisoi
Manipur

Shri Dinesh Kumar Bhatt
Deputy Inspector General (CID)
Aizawl
Mizoram

Shri Ajaya Kumar Parida
Superintendent of Police
Special Branch, Cuttack
Orissa

Shri Braham Paul
Superintendent of Police
Chandigarh
Punjab

Shri Jagtar Singh
Deputy Superintendent of Police
Punjab Police Academy, Phillaur
Punjab

Shri Krishan Kumar Sharma
Additional Director General of Police
Vigilance, Jaipur
Rajasthan

Shri Bhagwati Nath Yogeshwar
Inspector General of Police
Security, Jaipur,
Rajasthan

Shri T. Rajendran
Additional Director General of Police
Law and Order, Chennai
Tamil Nadu

Shri Amitabha Kar
Inspector General of Police
Police HQ, Agartala
Tripura

Shri Ambrish Chandra Sharma
Additional Director General of Police
Dr. B.R.A. UP Police Academy, Moradabad
Uttar Pradesh

Shri Vipin Kumar Sharma
Inspector General of Police
ACO, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Bhola Nath Singh
Commandant
15th Bn., PAC, Agra
Uttar Pradesh

Shri Devi Prasad Juyal
Deputy Superintendent of Police
Nainital, Uttarakhand

Shri Sivaji Ghosh
Additional Commissioner of Police
Kolkata
West Bengal

Shri Devinderpal Singh
Deputy Superintendent of Police
P.S.-Barasat, North 24 Parganas Distt.
West Bengal

Shri Vijay Kumar
Deputy Superintendent of Police
PCR
Chandigarh

Shri Nand Kishore
Inspector General
FTR HQ, Kadamtala, Darjeeling,
West Bengal
Border Security Force

Shri Ajit Mohan Bhatnagar
Deputy Inspector General
SHQ BSF Rajouri, J&K
Border Security Force

Shri Kamal Singh Chauhan
Deputy Inspector General
Shillong, Meghalaya
Border Security Force

Shri Shailender Singh Tomar
Deputy Inspector General
SHQ Kolkata, West Bengal
Border Security Force

Shri Dinesh Kumar Pandey
Deputy Inspector General
FTR HQ, Kolkata, West Bengal
Border Security Force

Shri Om Prakash Galhotra
Joint Director
STF Zone, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Arun Kumar
Joint Director
SC Zone, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Rishi Raj Singh
Joint Director
Mumbai
Central Bureau of Investigation

Shri Dharendra Nath Biswas
Additional Superintendent of Police
SU, Kolkata
Central Bureau of Investigation

Shri Harsha Vardhan Chaturvedi
Inspector General
NES HQ, Kolkata
Central Industrial Security Force

Shri A. Syed Zafarulla
Senior Commandant
NLC Neyveli
Central Industrial Security Force

Shri Rajesh Pratap Singh
Inspector General of Police
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Rajendra Ghai
Deputy Inspector General of Police
Gandhi Nagar, Gujarat
Central Reserve Police Force

Shri Gopal Das Pewal
Deputy Inspector General of Police (Prov)
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Balakesavan Srinivasan Methil
Deputy Inspector General of Police
CWS-II, Telegaon, Pune, Maharashtra
Central Reserve Police Force

Shri A. M. Muhammed
Deputy Inspector General of Police
CWS-I, Rampur (UP)
Central Reserve Police Force

Shri Suraj Mukh Gauba
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Shree Ram Singh
Assistant Director
DRTC, Shivpuri
Ministry of Home Affairs

Shri Mahendra Jha
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Surinder Nath Tagra
Assistant Director
Mumbai
Ministry of Home Affairs

Shri Hanuman Prasad Yadav
Deputy Central Intelligence Officer
Jaipur
Ministry of Home Affairs

Shri Shiv Prasad Mehra
Assistant Director
Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Brij Bihari Singh
Assistant Central Intelligence Officer Grade-I/G
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Hira Singh
Deputy Inspector General
ITBP Academy, Mussoorie, Uttarakhand
Indo Tibetan Border Police

Shri Vijay Singh Yadav
Assistant Commandant
19th Bn., Sarahan, Shimla, Himachal Pradesh
Indo Tibetan Border Police

Shri Rajendra Singh Negi
Inspector General
SSB Academy, Srinagar
Sashastra Seema Bal

Shri Prasun Mukherjee
Director General
New Delhi
Bureau of Police Research and Development

Shri Mukesh Chetal
Deputy Superintendent of Police
New Delhi
National Crime Record Bureau

Shri Loknath Behera
Officer on Special Duty
New Delhi
National Investigation Agency

Shri Roopkumar Dashru Kore
Inspector
Pendra Road,
Division, Bilaspur, Chhattishgarh
Railway Protection Force
M/o Railways

2. These awards are made under Rule 4(ii) of the Rule governing the grant of President's Police Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 122-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri Rajiv Ratan
Deputy Inspector General of Police
Octopus, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Harish Kumar Gupta
Joint Commissioner of Police
Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Jitender
Deputy Inspector General of Police
Andhra Pradesh Police Academy, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Y. Gangadhar
Superintendent of Police
Vizianagaram District
Andhra Pradesh

Shri Medipalli Ashok Vardhan Reddy
Additional Superintendent of Police
Intelligence, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Hari Kishore Bishoy
Additional Superintendent of Police
Greyhounds, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Shaik Sirajuddin
Additional Commandant
3rd Bn., APSP, Kakinada
Andhra Pradesh

Shri Gagguturu Kishore Babu Raja
Deputy Superintendent of Police
Ramachandrapuram, Medak District
Andhra Pradesh

Shri K. P. Lakshmi Naik
Assistant Commissioner of Police
Chikkadapally Division, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri Veedulamudi Suresh Babu
Assistant Commissioner of Police
Traffic, Vijayawada City
Andhra Pradesh

Shri A. Bala Krishna
Inspector of Police
Special Branch, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri S. Balaraju
Reserve Inspector of Police
Special Intelligence Branch, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri J. Kishan
Reserve Sub-Inspector
Andhra Pradesh Police Academy, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri K. Venkatarathnam
Assistant Sub-Inspector of Police
Tirupati Rural
Andhra Pradesh

Shri S. Dasaradhi
Assistant Sub-Inspector of Police
Eluru District, Special Branch
Andhra Pradesh

Shri L. Jayapal Reddy
Assistant Sub-Inspector of Police
Warangal District, Special Branch
Andhra Pradesh

Shri N. Sudhakar
Head Constable
Central Crime Station, SPS Nellore District
Andhra Pradesh

Shri M. Sudhakar Reddy
Reserve Sub-Inspector of Police
Special Intelligence Branch, Hyderabad
Andhra Pradesh

Shri V. Venkateswara Rao
Police Constable
Gopalapuram P.S. North Zone, Secunderabad
Andhra Pradesh

Shri Marge Riba
Deputy Superintendent of Police
Naharlagun
Arunachal Pradesh

Shri Abhay Kumar Upadhyay
Inspector General of Police
Special Vigilance Unit, Patna
Bihar

Shri Vinay Kumar
Inspector General of Police
Intelligence, Patna
Bihar

Smt. Preeta Verma
Inspector General of Police
CID, Patna
Bihar

Shri Barun Kumar Sinha
Superintendent of Police
Special Branch, Patna
Bihar

Shri Md. Abdul Manan
Sub-Inspector
CID, Patna
Bihar

Shri Azhar Hussain Ansari
Constable
PHQ, Patna
Bihar

Shri Shiv Kumar Singh
Havildar
PHQ, Patna
Bihar

Shri Krishna Kumar
Constable
CID, Patna
Bihar

Shri Rajeshwar Ram
Constable
CID, Patna
Bihar

Shri Rajendra Upadhyay
Sepoy
Special Branch, Patna
Bihar

Shri Sushil Kumar Sinha
Constable
SCRB, Patna
Bihar

Shri Rajesh Tiwari Constable PHQ, Patna Bihar	Shri Kuldeep Raj Sub Inspector Police Control Room N.C.T. of Delhi
Shri Rabindra Nath Tiwari Constable PHQ, Patna Bihar	Shri Harbans Lal Sub Inspector Security N.C.T. of Delhi
Shri Radhe Shyam Nayak Superintendent of Police ACB, Raipur Chhattisgarh	Mrs. Rajni Rana Assistant Sub-Inspector (Woman) Security N.C.T. of Delhi
Shri Tek Ram Painkara Commandant 6th Bn., CAF, Raigarh Chhattisgarh	Shri Sher Ali Head Constable 1st Bn., DAP NPL Delhi N.C.T. of Delhi
Shri Vijay Narayan Shukla Sub Inspector Special Branch, PHQ, Raipur Chhattisgarh	Shri Jorawar Singh Head Constable Traffic N.C.T. of Delhi
Shri Jagdish Kumar Tembhurkar Subedar (M) 8th Bn., CAF Chhattisgarh	Shri Suresh Kumar Rana Head Constable Outer District N.C.T. of Delhi
Shri Kripa Shankar Shukla Section Commander 2nd Bn, CAF, Sakri Bilaspur Chhattisgarh	Smt. Janki Head Constable (Woman) Crime (Women) Cell, Nanak Pura N.C.T. of Delhi
Shri Prithivi Nath Singh Head Constable Balrampur PS. Chhattisgarh	Shri Surender Kumar Constable Traffic N.C.T. of Delhi
Shri Bhuneswar Ram Head Constable PS. Sanawal, Balrampur Chhattisgarh	Smt. Madhu Bala Head Constable (Woman) RTI Cell, Special Branch N.C.T. of Delhi
Shri Sardari Lal Assistant Commissioner of Police Provisioning & Logistics, N.C.T. of Delhi	Shri Arvindkumar Fulshankar Mehta Assistant Commissioner of Police Hq Ahmedabad City Gujarat
Shri Dinesh Chandra Shukla Inspector Police Training College N.C.T. of Delhi	Shri K. M. Vaghela Assistant Commissioner of Police Ahmedabad City Gujarat
Shri Jagdish Chander Pandey Inspector FRRO N.C.T. of Delhi	Shri Arjunsinh Sabalsinh Rathod Deputy Superintendent of Police State Control Room, Gandhinagar Gujarat
Shri Sandip Chakravarty Inspector Communication Branch N.C.T. of Delhi	Shri Rajendrasinh Ranjitsinh Gohil Unarmed Police Inspector Traffic Branch, Rajkot City, Gujarat

Shri Narendrasinh Bahadursinh Jadeja Unarmed Police Inspector Jasdan Police Station, Rajkot Distt. Gujarat	Shri Ashok Tewari Deputy Inspector General of Police Northern Range, Dharamshala Himachal Pradesh
Shri Dilipkumar Rameshchandra Agravat Unarmed Police Inspector Local Crime Branch, Bharuch District Gujarat	Shri Ranvir Singh Inspector 1st IRB, Bangarh Himachal Pradesh
Shri Digvijaysinh Mahendrasinh Vaghela Unarmed Police Inspector Detective Crime Branch, Rajkot City Gujarat	Shri Deepak Kumar Deputy Inspector General Gulshan Ground, Jammu Jammu and Kashmir
Shri Kalyansinh Bhagwansinh Chhasatia Unarmed Head Constable Vadodara Rural Gujarat	Smt. Gurdev Kour Joint Director (Prosecution) CID HQ, Jammu and Kashmir
Shri Mahavirshinh Kanubha Zala Unarmed Head Constable Local Crime Branch, Surendranagar Gujarat	Shri Zakir Hussain Commandant IRP, 4th Bn, Batmaloo, Srinagar Jammu and Kashmir
Shri Vijaykumar Natwarlal Rana Unarmed Police Constable Local Crime Branch, Bharuch District Gujarat	Shri Rupender Kumar Chalotra Additional Superintendent of Police Police Control Room, Jammu Jammu and Kashmir
Shri Arshinder Singh Chawla Superintendent of Police Karnal Haryana	Shri Abdul Rashid Bhat Inspector Hq Srinagar Jammu and Kashmir
Shri Mohinder Singh Inspector SCB/Madhuban Haryana	Shri Abdul Kabir Bhat Inspector JKAP, 13th Battalion Jammu and Kashmir
Shri Jai Shri Inspector Palwal Haryana	Shri Mohammad Yousuf Ganai Sub-Inspector CID Hq, Jammu Jammu and Kashmir
Shri Ishwar Singh Inspector SHO/GPR, Aimbala Cantt. Haryana	Shri Vijay Kumar Nakhasi Sub-Inspector SKPA Udhampur Jammu and Kashmir
Shri Joginder Kumar Assistant Sub-Inspector Sirsa Haryana	Shri Ghulam Qadir Shaheen Sub-Inspector Security Headquarters Jammu and Kashmir
Shri Sukhwinder Pal Head Constable SVB/Chandigarh Haryana	Shri Kuldeep Singh Sub-Inspector Commando Group Chatroo Jammu and Kashmir
Shri Anurag Garg Deputy Inspector General of Police Central Range, Mandi Himachal Pradesh	Shri Manzoor Ahmed Sub Inspector Commando Group Poonch Jammu and Kashmir

Shri Nissar Hussain Wani Assistant Sub Inspector Security Civil Secretariat, Jammu and Kashmir	Shri Ramaiah N. Nanjappa Head Constable Intelligence, Bangalore Karnataka
Shri Anil Kumar Sudan Assistant Sub Inspector Battalion Hqrs, Jammu Jammu and Kashmir	Shri Raveendra Shamanna Head Constable Intelligence, Bangalore Karnataka
Shri K. H. Srinivasan Deputy Inspector General of Police Railways, Bangalore Karnataka	Shri M Nagarajappa Head Constable VIII Bn, KSRP Shimoga Karnataka
Shri Panduranga Hadu Rane Deputy Commissioner of Police Traffic West, Bangalore Karnataka	Shri Ravada A Chandra Sekhar Deputy Inspector General & Commissioner of Police Thiruvananthapuram Kerala
Shri K. S. Mohan Superintendent of Police Lokayukta, Ramanagar Karnataka	Shri Vijaya Sreekumar Superintendent of Police Kottayam Kerala
Shri S. H. Gangaraddi Superintendent of Police Intelligence, Belgaum Karnataka	Shri K. R. Premachandran Assistant Commissioner of Police Kozhikode South Kerala
Shri V. S. Prabhakar Deputy Commissioner of Police Bangalore Karnataka	Shri C. K. Sankaranarayanan Deputy Superintendent of Police Special Branch, Thrissur Kerala
Shri M. M. Mahadevaiah Deputy Superintendent of Police Chamrajanagar Sub Division Karnataka	Shri K. V. Joseph Deputy Superintendent of Police Vigilance & Anti Corruption Bureau, Iduki Unit, Thodupuzha, Kerala
Shri Chandrashekar Laxmanrao Kallyan Deputy Superintendent of Police Finger Print Bureau, Belgaum Karnataka	Shri D. Vijayan Assistant Commissioner of Police Thiruvananthapuram City Kerala
Shri Yaragudi Baburaju Police Sub Inspector DSA, Unit, DOP Bellary Karnataka	Shri P. C. Krishnan Kutty Assistant Commandant KAP 2nd Battalion, Palakkad Kerala
Shri Ponnappa Thimmaiash Hosakalu Special Reserve Sub Inspector V Bn KSRP, Mysore Karnataka	Shri G. Harikumar Head Constable SB CID, Hq. Thiruvananthapuram Kerala
Shri Prabhakar Rai Special Reserve Sub Inspector VII Bn, KSRP, Mangalore Karnataka	Shri M. Sreekumaran Assistant Sub-Inspector VACB, Special Cell, Thiruvananthapuram Kerala
Shri Kanakappa Durgappa Madar Special Reserve Sub Inspector X Bn, KSRP, Shiggaon Karnataka	Shri Syed Mohammad Afzal Deputy Inspector General SAF, Bhopal Madhya Pradesh

Shri K. Babu Rao
Chief Vigilance Officer
South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur
Madhya Pradesh

Shri D. C. Sagar
Deputy Inspector General/
Chief Vigilance Officer
Cotton Corporation of India Limited
Navi Mumbai
Madhya Pradesh

Shri Raghuvir Singh Meena
Superintendent of Police
Chambal Zone, Gwalior
Madhya Pradesh

Shri Anil Sharma
Superintendent of Police
Cahambal Zone, Gwalior
Madhya Pradesh

Shri Rakesh Kumar Jain
Additional Superintendent of Police
Satna District
Madhya Pradesh

Shri Manohar Singh Verma
Additional Superintendent of Police
Gwalior
Madhya Pradesh

Shri Ashok Kumar Solanki
Deputy Superintendent of Police
Lokayukta, Ujjain
Madhya Pradesh

Shri Govind Singh Kathait
Quarter Master
7th Bn., SAF, Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Kalika Prasad Naugain
Platoon Commander
29 Bn. SAF, Datia
Madhya Pradesh

Shri Kumher Singh Parmar
Head Constable
5th Bn. SAF, Morena
Madhya Pradesh

Shri Shankar Singh Rathore
Constable
Office of IGP, Ujjain
Madhya Pradesh

Shri Devendra Kumar Mishra
Constable
Sagar District
Madhya Pradesh

Shri Shankar Lal Soni
Constable
Special Branch, Khandwa
Madhya Pradesh

Shri Brijmohan Prasad Tripathi
Constable
Shahdol District
Madhya Pradesh

Shri Ghanshyam Rahul
Assistant Sub Inspector (M)
Bhopal
Madhya Pradesh

Shri Raosaheb Dattatraya Shinde
Superintendent of Police
Raigad
Maharashtra

Shri Gunwant Kishanrao Warthe
Commandant
SRPF Gr. XIII, Nagpur
Maharashtra

Shri Ramesh Babulal Chaudhari
Deputy Superintendent of Police
Detective Training School, Nashik
Maharashtra

Shri Virendra Laxman Gadkari
Additional Superintendent of Police
Maharashtra Police Academy, Nashik
Maharashtra

Shri Vasant Maruti Tajne
Senior Police Inspector
N. M. Joshi Marg PS, Mumbai
Maharashtra

Shri Suresh Pandurang Bhosale
Senior Police Inspector
Panvel City PS, Navi Mumbai
Maharashtra

Shri Mahadeo Shripati Gawade
Inspector of Police
Traffic Branch, Pune City
Maharashtra

Shri Dayanand Harishchandra Dhome
Inspector of Police
Patan PS, Satara
Maharashtra

Shri Bhanupratap Shankar Barge
Inspector of Police
Special Branch, Pune
Maharashtra

Shri Champalal Daulatsingh Shevgan
Inspector of Police
Local Crime Branch, Osmanabad
Maharashtra

Shri Ashok Govind Karpe
Inspector of Police
Nashik City
Maharashtra

Shri Venimadhav Bhalchandra Sonawane
Assistant Inspector of Police
Thane Rural
Maharashtra

Shri Popat Dada Solase
Assistant Sub-Inspector
Nashik City
Maharashtra

Shri Narayan Sadashiv Danav
Armed Assistant Sub-Inspector
SRPF Gr. IV, Nagpur
Maharashtra

Shri Shankar Dhondiba Pendhe
Assistant Police Sub-Inspector
Traffic Branch, Pune City
Maharashtra

Shri Maruti Bhimrao Raut
Assistant Police Sub-Inspector
Protection Branch, Mumbai City
Maharashtra

Shri Prakash Ratilal Wagh
Armed Assistant Sub-Inspector
SRPF, Gr. VIII, Mumbai
Maharashtra

Shri Vasant Devram Palade
Assistant Sub-Inspector
Nashik City
Maharashtra

Shri Asifali Jiyawoddin Sayyed
Assistant Police Sub-Inspector
Nashik City
Maharashtra

Shri Ramesh Janardhan Kharat
Assistant Sub-Inspector
MT. Buldhana
Maharashtra

Shri Dinkar Harchand Adakmol
Head Constable
MIDC Police Station, Jalgaon
Maharashtra

Shri Najirkha Mohmedkha Nawajkha Pathan
Head Constable
MT Section, Nandurbar
Maharashtra

Shri Bansi Ramchandra Dalimbe
Head Constable
BDDS, Pune
Maharashtra

Shri Abdul Rehmankha Pathankha
Head Constable
Varnagaon Police Station
Maharashtra

Shri Prabhakar Shankar Patil
Head Constable
LAIII, Worli, Mumbai
Maharashtra

Shri Deepak Baburao Patil
Head Constable
Special Branch, Solapur (Rural)
Maharashtra

Shri Ram Anantrao Landge
Armed Police Head Constable
SRPF Gr. II, Pune
Maharashtra

Shri Latif Khan Khajakhan Pathan
Head Constable
PHQ, Beed
Maharashtra

Shri Harjindersingh Balwantsingh Chawla
Head Constable
Highway Safety, Nanded
Maharashtra

Shri Shamgonda Jingonda Patil
Police Naik
Sangli Rural Police Station, Sangli
Maharashtra

Shri Namdeo Vithoba Gavhane
Police Naik
ACB, Jalna
Maharashtra

Shri Hanumant Sandipan Shinde
Police Naik
Bembali Police Station, Osmanabad
Maharashtra

Shri Y. Ashok Kumar Singh
Deputy Commandant
7th Bn. Manipur Rifles, Khabeisoi
Manipur

Shri L. Ranjit Singh
Jemadar
7th IRB, Imphal
Manipur

Shri F. N. Sangma
Additional Superintendent of Police
Shillong
Meghalaya

Shri Lalbiakthanga Khiantge
Superintendent of Police
Aizawl District
Mizoram

Shri Lalhmingliana Sailo
Assistant Commandant 3rd I R Bn.,
Aizawl
Mizoram

Shri Imtiakum AO Deputy Commandant Tuensang Nagaland	Shri Mohinder Lal Inspector of Police Punjab Police, Academy, Phillaur Punjab
Shri Anandprakash Chand Fitter Inspector Police Motor Transport, Hq. Cuttack Orissa	Shri Jagir Singh Inspector of Police CID Unit, Amritsar Punjab
Shri Prana Krushna Rout Inspector Ainthapali P.S., Sambalpur Orissa	Shri Bahadur Singh Sub-Inspector PAP Training Centre, Jalandhar Punjab
Shri Bipin Bihari Nayak Inspector Vigilance, Balasore Orissa	Shri Kulbir Singh Sub-Inspector PRTC, Jahan Khelan Punjab
Shri Suresh Chandra Sahu Assistant Sub-Inspector Ainthapali P.S., Sambalpur Orissa	Shri Amrik Singh Sub Inspector O/o IGP, Training, Chandigarh Punjab
Shri Siba Prasad Kanongo Havildar Reserve Office, Panposh (P.O.), Rourkela Orissa	Shri Hardev Singh Assistant Sub-Inspector Amritsar (Rural) Punjab
Shri Bira Kishore Nayak Constable Cuttack Orissa	Shri Satpal Singh Head Constable Ludhiana (Rural) Punjab
Shri Trailokya Nath Rout Constable Special Branch, Cuttack Orissa	Shri Balwant Rai Head Constable Punjab Police Academy, Phillaur Punjab
Shri Bishnu Charan Mishra Constable Vigilance Directorate, Cuttack Orissa	Shri Baldev Raj Head Constable Gurdaspur Punjab
Shri Mandeep Singh Superintendent of Police Excise & Taxation, Patiala Punjab	Shri Makhan Singh Assistant Inspector General of Police Counter Intelligence, Amritsar Punjab
Shri Kamal Kumar Superintendent of Police Zonal Crime, Jalandhar Punjab	Shri Sunil Dutt Deputy Inspector General of Police Crime Branch, Jaipur Rajasthan
Shri Avtar Singh Deputy Superintendent of Police PRTC, Jahan Khelan Punjab	Shri Bal Mukand Verma Superintendent of Police APO, PHQ, Jaipur Rajasthan
Smt. Leela Devi Inspector of Police Incharge Women Cell, Jalandhar Punjab	Shri Jeevraj Singh Rathore Deputy Superintendent of Police/ Deputy Director Enforcement Excise Preventive Force, Bikaner Rajasthan

Shri Giriraj Prasad Meena
Inspector of Police
SSB, Jaipur
Rajasthan

Shri Jai Prakash
Sub Inspector of Police
Anti Corruption Bureau, Jaipur
Rajasthan

Shri Shabbir Ahmed
Assistant Sub Inspector
Police Tele Communication, Jaipur
Rajasthan

Shri Ghanshyam Lal Brahman
Assistant Sub-Inspector
PS Rashmi, District-Chittorgarh
Rajasthan

Shri Laxman Ram Meghwal
Head Constable
11th Bn., RAC (1R), Delhi
Rajasthan

Shri Bhagwan Singh
Head Constable
Police Lines, Bharatpur
Rajasthan

Shri Ratan Lal Dharu
Head Constable
Police Line, Jodhpur City
Rajasthan

Shri Khursid Ahamad
Head Constable
PS Sadar, District Jhunjhunu
Rajasthan

Shri Hukam Singh
Head Constable
Police Line, Jaipur
Rajasthan

Shri Ramchandra Meena
Constable
Police Line, Jaipur City
Rajasthan

Shri Virendra Singh Negi
Constable
3rd Battalion, RAC, Bikaner
Rajasthan

Shri Mahesh Kumar Saini
Constable
SP Office District-Jhunjhunu
Rajasthan

Shri Nedup Wangdi Bhutia
Deputy Superintendent of Police
I.R. Bn., New Delhi
Sikkim

Shri P. Ramakrishnan
Additional Superintendent of Police
SIT, CB CID, Coimbatore
Tamil Nadu

Shri D. Chandra Basu
Additional Superintendent of Police
CB CID, Metro, Chennai
Tamil Nadu

Shri M. Karunanithi
Additional Superintendent of Police
TNPA, Chennai
Tamil Nadu

Shri S. Balu
Deputy Superintendent of Police
Cyber Crime Cell, CB CID, Chennai
Tamil Nadu

Shri T. Ashok
Assistant Commissioner of Police
IS Security, Sub-Urban, Chennai
Tamil Nadu

Shri S. Kannan
Inspector of Police
IS Trichy City
Tamil Nadu

Shri A. Rajendran
Inspector of Police
SJ & Hr. Dharmapuri District
Tamil Nadu

Shri B. Govindasamy
Inspector of Police
V&AC, Trichy
Tamil Nadu

Shri K. Kannan
Inspector of Police
V&AC, Nagarcoil, Kanyakumari District
Tamil Nadu

Shri P. Paramasamy
Inspector of Police
V&AC Special Investigation Cell, Chennai
Tamil Nadu

Shri E. Venkatesan
Inspector of Police
V&AC, Cuddalore
Tamil Nadu

Shri M. Dhanasekaran
Sub-Inspector of Police
Armed Reserve, Ramanathapuram
Tamil Nadu

Shri Barun Baidya
Subedar/GD
O/o Commandant RK Nagar, Tripura West
Tripura

Shri Kamakhya Ranjan Das
Head Constable
Traffic Unit, Agartala
Tripura

Shri Rizwan Ahmed
Additional Director General of Police
Human Rights, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Prem Chand Meena
Deputy Inspector General of Police
Varanasi
Uttar Pradesh

Shri S. B. Shiradkar
Deputy Inspector General
CISF, DAE, Hyderabad, Andhara Pradesh
Uttar Pradesh

Shri Keshav Saran Pippil
Superintendent of Police
Kanpur Dehat
Uttar Pradesh

Shri Rajendra Pal Singh
Deputy Superintendent of Police
PTC Moradabad
Uttar Pradesh

Shri Bhawan Singh Garbiyal
Deputy Superintendent of Police
Distt. Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Shanker Dutt Shukla
Deputy Superintendent of Police
Distt. Allahabad
Uttar Pradesh

Shri Chandra Sen
Deputy Superintendent of Police
Distt. BadAYU
Uttar Pradesh

Shri Ved Pal Singh
Deputy Superintendent of Police
PCL, Ghaziabad
Uttar Pradesh

Shri Sohan Pal Varshney
Deputy Superintendent of Police
38 Bn., PAC, Aligarh
Uttar Pradesh

Shri Paramhans Yadav
Deputy Superintendent of Police
CB CID, Hq. Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Sarjeet Singh
Deputy Superintendent of Police
Distt. Faizabad
Uttar Pradesh

Shri Anand Veer Singh
Deputy Superintendent of Police
Distt. Auraiya
Uttar Pradesh

Shri Om Shankar Shukla
Deputy Superintendent of Police
Police Hq. Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Jiv Dhan Ram
Deputy Superintendent of Police
Distt. Ambedkar Nagar
Uttar Pradesh

Shri Sushil Kumar Kanaujia
Deputy Superintendent of Police
Distt. Kushi Nagar
Uttar Pradesh

Shri Mahmood Ahmed
Platoon Commander
11 Bn., PAC, Sitapur
Uttar Pradesh

Shri Umesh Chand Mishra
Sub-Inspector
LIU, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ravindra Nath Singh
Platoon Commander
27th Bn., PAC, Sitapur
Uttar Pradesh

Shri Surendra Nath Pandey
Platoon Commander
35 Bn., PAC, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Ram Suresh Yadav
Head Constable
Vigilance Establishment, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Chandra Dev Yadav
Platoon Commander
25 Bn., PAC, Raibareilly
Uttar Pradesh

Shri Shiromani Singh
Head Constable
45 Bn., PAC, Aligarh
Uttar Pradesh

Shri Indra Pal
Constable
Police Line, Hardoi
Uttar Pradesh

Shri Dulam Singh Yadav
Constable
District Mirzapur
Uttar Pradesh

Shri Somveer Singh
Inspector
District Baghpat
Uttar Pradesh

Shri Satya Ram Yadav
Company Commander
43 Bn PAC, Etah
Uttar Pradesh

Shri Om Prakash Mishra
Constable
District Kheri
Uttar Pradesh

Shri Madan Singh
Reserve Inspector
District Saharanpur
Uttar Pradesh

Shri Lakhan Singh
Constable
District Bareilly
Uttar Pradesh

Shri Ravindra Nath Pandey
Constable
District Gorakhpur
Uttar Pradesh

Shri Anil Kumar Singh
Sub-Inspector
CB CID Hq, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Om Prakash Dubey
Head Operator
District Jaunpur
Uttar Pradesh

Shri Shiv Balak Yadav
Constable
District Hardoi
Uttar Pradesh

Shri Tara Dutt Walia
Deputy Superintendent of Police
Circle Kotdwar, Pauri
Uttarakhand

Shri Sanjeev Kumar Kaushik
Inspector
Intelligence Hq, Dehradun
Uttarakhand

Shri Hayat Singh Kathayat
Head Constable
Bageshwar
Uttarakhand

Shri Pradip Kumar Sanyal
Joint Commissioner of Police
Kolkata
West Bengal

Shri Jag Mohan
Special Inspector General of Police/
Deputy Inspector General of Police
Burdwan Range, Chinsura, Distt. Hooghly
West Bengal

Shri Kartick Chandra Tewari
Sub Inspector
Vigilance Commission, Kolkata
West Bengal

Shri Avranta Bandhu Majumder
Inspector of Police
Kolkata
West Bengal

Shri Valentine Rana
Assistant Sub-Inspector
SLG GRP Siliguri, District Darjeeling
West Bengal

Shri Manik Kumar Mondal
Constable
Chandannagoare PBX
West Bengal

Shri Benukar Mukhapadhyay
Sub-Inspector of Police
P.O. Suri, District Birbhum
West Bengal

Shri Bikash Kumar Dey
Sub Inspector
South 24 Parganas
West Bengal

Shri Nikhil Narayan Saha
Assistant Sub Inspector
State Armed Police 3rd BN, Barakpore
West Bengal

Shri Vinod Kumar
Constable
Siliguri Traffic
West Bengal

Shri Swapan Kumar Bose
Armed Assistant Sub Inspector
State Armed Police, 6th Bn,
Barakpore, Kolkata
West Bengal

Shri Tapan Kanti Roy
Constable
Titagarh PS, North 24 Parganas District
West Bengal

Shri Ratan Kumar Bhowmick
Constable
SOG Section, CID
West Bengal

Shri Nitya Pada Mukherjee
Constable
Special Branch, Kolkata
West Bengal

Shri Gour Majumder
Assistant Sub Inspector
CID, Kolkata
West Bengal

Shri K. Mohammed Basheer
Inspector
PHQ, Port Blair
Andaman and Nicobar Islands

Shri Udaypal Singh
Sub Inspector
I/C PP Bapudham, Sector-26
Chandigarh

Shri Ranvir Singh
Superintendent of Police
PHQ, UT of Lakshadweep, Kavaratti
Lakshadweep

Shri S. Ramaraju
Superintendent of Police
Vigilance and Anti Corruption
Puducherry

Shri J. Raja Kirubakaran
Inspector of Police
Sigma Security
Puducherry

Shri Mohmd. Ajijul Haque
Subedar Major
Hq 21 Sector, Tripura Range, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Ful Bahadur Gurung
Subedar
14 AR, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Nandan Singh
Subedar
Teliamura, Distt. West Tripura
Assam Rifles

Shri Ait Bahadur Chhetri
Subedar
Teliamura, Distt. West Tripura,
Assam Rifles

Shri Chet Bahadur Thapa
Subedar
FHQ, Shillong-11
Assam Rifles

Shri Jagan Nath Singh
Subedar Clerk
FHQ, Shillong-11
Assam Rifles

Shri Rakhal Dhar
Superintendent
FHQ, Shillong-11
Assam Rifles

Shri Bir Bahadur Chhetri
Commandant
Adm. Support Unit, Shillong
Assam Rifles

Shri Hans Ram
Subedar Major
Adm. Support Unit, Shillong
Assam Rifles

Shri Mahabir Singh Sillen
Second-In Command
Hq 25 Sector, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Bhim Kumar Sarki
Subedar Major
25 AR, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Prithivi Raj Singh
Subedar
25 AR, C/o 99 APO
Assam Rifles

Shri Prem Charan Rajbangshi
Subedar
32 AR C/o 99 APO, Jalukie, Nagaland
Assam Rifles

Shri Onkar Chand Dogra
Deputy Inspector General
SHQ Kupwara, C/o 56 APO, J&K
Border Security Force

Shri Surjeet Singh Dogra
Deputy Inspector General (Prov)
FTR Hq Gandhinagar, Gujarat
Border Security Force

Shri Vishnu Datt Sharma
Deputy Inspector General (G)
FTR Hq Gandhinagar, Gujarat
Border Security Force

Shri Dharmendra Kumar Tripathi
Commandant
BSF Academy, Tekanpur, Gwalior, Madhya Pradesh
Border Security Force

Shri Ranjeet Singh Rathore
Commandant
44 Bn, Sriganganagar, Rajasthan
Border Security Force

Shri Pratap Singh Chandel
Commandant
SHQ Barmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Bhishan Singh Patiyal
Commandant
173 Bn Panthachok, Srinagar, J&K
Border Security Force

Shri Ulliada Muthanna Subramani
Commandant
82, Bn, Karahalli P.O, Bangalore, Karnataka
Border Security Force

Shri Manmohan Singh Panwar
Deputy Commandant
4 Bn, Samba, C/o 56 APO
Border Security Force

Shri K. M. Mukhopadhyaya
Deputy Commandant
1 Bn, West Garo Hills, Tura, Meghalaya
Border Security Force

Shri Pritam Singh Saxena
Deputy Commandant
STS, Tigri Camp, New Delhi
Border Security Force

Shri Shashikant Sharma
Deputy Commandant
66 Bn, Dabla, Jaisalmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Sukhendra Singh Rathore
Deputy Commandant
107 Bn, Dantiwada, Gujarat
Border Security Force

Shri Bhaiya Prabhat Kumar
Deputy Commandant
122 Bn, C/o 56 APO
Border Security Force

Shri Ved Prakash Sharma
Assistant Commandant
81 Bn, Pokhran, Jaisalmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Padmendra Singh Rawat
Assistant Commandant (Min)
AM FTR, Shillong, Meghalaya
Border Security Force

Shri Janved Singh
Inspector
36 Bn, Nadia, West Bengal
Border Security Force

Shri Bahadur Singh Kholia
Inspector
173 Bn, Srinagar, J&K
Border Security Force

Shri Sadhu Ram
Inspector
75 Bn, Sriganganagar, Rajasthan
Border Security Force

Shri Sajjan Singh
Inspector
43 Bn, Ferozpur, Punjab
Border Security Force

Shri Gopal Bahadur Rana
Inspector
75 Bn, Sriganganagar, Rajasthan
Border Security Force

Shri Bisheshwar Roy
Inspector
25 Bn, Chhawla Camp, New Delhi
Border Security Force

Shri Kailash Chand Bhatt
Inspector (Tech)
35 Bn, West Garo Hills, New Tura, Meghalaya
Border Security Force

Shri Hayat Singh Mehra
Inspector (Min)
FTR Hq Agartala, Tripura
Border Security Force

Shri Ouseph Varghese
Inspector
G Dte, FHQ New Delhi
Border Security Force

Shri Matwar Singh
Sub Inspector
74 Bn, Bareilly
Border Security Force

Shri Dharamvir Yadav
Sub Inspector
72 Bn, Ferozpur, Punjab
Border Security Force

Shri Madan Singh
Sub Inspector
140 Bn, Churachandpur, Manipur
Border Security Force

Shri Kuldip Kumar Pathania
Sub Inspector
85 Bn, Pokhran, Jaisalmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Dilbag Singh
Sub Inspector (RM)
FTR Hq, Jammu
Border Security Force

Shri Narinder Pal Sharma
Sub Inspector (Cipher)
43 Bn, Ferozpur, Punjab
Border Security Force

Shri Suresh Singh Yadav
Assistant Sub Inspector (Pharmacist)
Composite Hospital
Tekanpur, Gwalior, Madhya Pradesh
Border Security Force

Shri Deba Prasad Mandal
Head Constable
109 Bn, Gurudaspur, Punjab
Border Security Force

Shri Skinder Nath
Head Constable
STC Kashmir, Srinagar, J&K
Border Security Force

Shri Shahabuddin
Constable (Tailor)
103 Bn, Kishanganj, Bihar
Border Security Force

Shri Munnar Ram
Cobbler
STC, Yelahanka, Bangalore, Karnataka
Border Security Force

Shri Rajendra Prasad Thakur
Barber
194 Bn, Siliguri Distt, Darjeeling, West Bengal
Border Security Force

Shri Man Singh Gurung
Cook
96 Bn, Cachar District, Assam
Border Security Force

Shri Sodi Singh
Safai Karmachari
66 Bn, Jaisalmer, Rajasthan
Border Security Force

Shri Dayal Singh
Deputy Commandant
58 Bn, Nowshera, C/o 56 APO
Border Security Force

Shri Avtar Singh
Assistant Commandant
199 Bn, Ferozpur, Punjab
Border Security Force

Shri Baldev Singh
Assistant Commandant
7 Bn, Ferozpur, Punjab
Border Security Force

Shri Hemant Priyadarshy
Deputy Inspector General of Police
ACB, Bhopal
Central Bureau of Investigation

Shri Zaki Ahmed
Deputy Inspector General of Police
SC-III, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri N. M. Singh
Superintendent of Police
ACB, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Hari Singh Gurawaria
Additional Superintendent of Police
SC-III, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Ghanshyam Rai
Deputy Superintendent of Police
BS&FC, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Sanjay Kewalkrishnan Sareen
Deputy Superintendent of Police
BS&FC, Mumbai
Central Bureau of Investigation

Shri Kalaimani Gopalan
Inspector of Police
ACB, Chennai
Central Bureau of Investigation

Shri Kumaresan Krishnaswamy
Inspector
ACB, Chennai
Central Bureau of Investigation

Shri Manak Chand
Sub Inspector
ACU-IV, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Ravinder Kumar
Sub Inspector
AC-III, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Banshi Dhar Tiwari
Assistant Sub Inspector
MDMA, Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Dilbagh Khatri
Head Constable
EOU I Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Rawel Singh
Head Constable
SU Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri Harpal Singh
Constable
New Delhi
Central Bureau of Investigation

Shri K. Abdul Rasheed
Constable
ACB Cochin
Central Bureau of Investigation

Shri Satvir Sindhu
Deputy Inspector General
ONGC Nazira, Assam
Central Industrial Security Force

Shri Udayan Banerjee
Deputy Inspector General
IGI Airport, New Delhi
Central Industrial Security Force

Shri Vimal Sain Jain
Deputy Commandant
JGPP Jhanoor Gujarat
Central Industrial Security Force

Shri Ashok Kumar Sharma
Deputy Commandant
ONGC Mehsana, Gujarat
Central Industrial Security Force

Shri K. S. Sashidharan
Head Constable
Hyderabad Airport
Central Industrial Security Force

Shri Gordhanbhai Parmar
Head Constable
RCFL Thal, Raigad, Maharashtra
Central Industrial Security Force

Shri Chhotu Ram
Head Constable
Gail Vijaypur Guna, Madhya Pradesh
Central Industrial Security Force

Shri Rajbir Singh
Head Constable
ISP Burnpur, West Bengal
Central Industrial Security Force

Shri Mahesha Nanda Joshi
Head Constable
CGBS, New Delhi
Central Industrial Security Force

Shri Rajendra Singh
Head Constable
VPT, Vizag, Andhra Pradesh
Central Industrial Security Force

Shri Pal Singh
Head Constable
CNP Nasik, Maharashtra
Central Industrial Security Force

Shri Santosh Kumar Pahari
Head Constable
DSP Durgapur, West Bengal
Central Industrial Security Force

Shri Ram Shankar Nanda
Head Constable
HDC Haldia, West Bengal
Central Industrial Security Force

Shri K. Rabi
Head Constable
ONGC Nazira, Assam
Central Industrial Security Force

Shri Dimbeswar Gogoi
Head Constable
Oil Duliajan, Assam
Central Industrial Security Force

Shri Rishi Kumar Pandey
Head Constable
Ahmedabad Airport
Central Industrial Security Force

Shri Tapan Dutta Choudhury
Head Constable
STPP Simhadri
Central Industrial Security Force

Shri Jayanarayana Mahapatra
Head Constable
NISA Hyderabad
Central Industrial Security Force

Shri Nalin Prabhat
Deputy Inspector General of Police
Hq, South Kashmir, OPS Range, C/o 56 APO, J&K
Central Reserve Police Force

Shri Pramod Kumar Pandey
Deputy Inspector General of Police
Bhopal Range, Hqrs, Bangrasia, Bhopal
Central Reserve Police Force

Shri Manoj Kumar Dubey
Deputy Inspector General of Police
Range Office, Bijnore, Lucknow
Central Reserve Police Force

Shri Ravideep Singh Sahi
Deputy Inspector General of Police (OPS)
Bastar, Dantewada, Chhattisgarh
Central Reserve Police Force

Shri Rakesh Kumar Yadav
Deputy Inspector General of Police
Group Centre, Rambagh, Srinagar
Central Reserve Police Force

Shri Kamal Kant Sharma
Deputy Inspector General of Police
Group Centre, Bangrasia, Bhopal (M.P.)
Central Reserve Police Force

Shri Vikram Sahgal
General Manager (Security)
India Trade Promotion Organisation, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Sangram Keshari Mohanty
Deputy Inspector General of Police
Group Centre, Bhubaneswar, Mayapalli, Orissa
Central Reserve Police Force

Shri Giri Prasad Venkata Hanuma Ganugapati
Deputy Inspector General of Police
O/o IGP, Gomti Nagar, Lucknow
Central Reserve Police Force

Shri R. N. S. Bahad
Deputy Inspector General of Police (OPS)
Bongaigaon, Assam
Central Reserve Police Force

Shri Rajendra Singh Chauhan
Deputy Inspector General of Police
O/o IGP, Srinagar
Central Reserve Police Force

Shri Narendra Kumar Bhardwaj
Deputy Inspector General of Police
O/o IGP, Southern Sector, Hyderabad
Central Reserve Police Force

Shri Mool Chand Panwar
Deputy Inspector General of Police
O/o IGP, Tripura Sector, Agartala
Central Reserve Police Force

Shri Sekar Thanikachalam
Deputy Inspector General of Police
Group Centre, Pallipuram, Thiruvananthapuram
Central Reserve Police Force

Shri Ram Gopal Rai Bhat
Deputy Inspector General of Police
Siliguri
Central Reserve Police Force

Shri Radha Mohan Meena
Deputy Inspector General of Police
Neemuch (MP)
Central Reserve Police Force

Shri Ashok Kumar Sinha
Deputy Inspector General of Police
Composite Hospital, Ajmer
Central Reserve Police Force

Shri Arun Kumar Sinha
Chief Medical Officer (NFSG)
153 Bn., P.O. - Bairiya, East Champaran, Bihar
Central Reserve Police Force

Shri Mahesh Kumar
Commandant
1st Sig. Bn., Jharodakalan, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Diban Singh Negi
Commandant
RTC, Dharampur, Distt. - Solan (HP)
Central Reserve Police Force

Shri Girish Kumar
Commandant
13 Bn., Amritsar, Punjab
Central Reserve Police Force

Shri Sanjeev Dhundia
Commandant
195 Bn, Barasoor, Dantewada, Chhattisgarh
Central Reserve Police Force

Shri Syed Mohammad Hasnain
Commandant
CTC (T&IT), Dhurwa, Ranchi, Jharkhand
Central Reserve Police Force

Shri Vivek Chaturvedi
Commandant
O/o DIGP, Allahabad
Central Reserve Police Force

Shri Subhash Damle
Commandant
O/o DIGP, Yelahanka, Bangalore
Central Reserve Police Force

Shri Jaldeep Singh Kanwat
Second-in-Command
90, Bn. C/o 56, APO, J&K
Central Reserve Police Force

Shri Vijay Kumar Vaniyabath
Deputy Commandant
Group Centre, Pallipuram
Thiruvananthapuram, Kerala
Central Reserve Police Force

Shri Basant Singh Guleria
Deputy Commandant
18 Bn., Kulgam, J&K
Central Reserve Police Force

Shri N. R. Nair
Jt. Assistant Director
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Suraj Bhan
Assistant Commandant
Group Centre, Chiloda Road, Gandhinagar
Central Reserve Police Force

Shri Rewat Singh
Section Officer
FHQ, New Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Thundiyl Chacko Easow
Administrative Officer
Group Centre, Bantalab, Jammu
Central Reserve Police Force

Shri Surjeet Singh
Inspector
121 Bn., Kathua (J&K)
Central Reserve Police Force

Shri Mool Chand Yadav
Inspector
81 Bn, Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh
Central Reserve Police Force

Shri Tarsem Lal Kahol
Inspector/Steno
O/o IGP, Special Sector, Delhi
Central Reserve Police Force

Shri Anand Singh
Sub-Inspector
Group Centre, Keshogiri-PO
Hyderabad, Andhra Pradesh
Central Reserve Police Force

Shri Joginder Dass
Sub-Inspector
Group Centre, Jalandhar, Punjab
Central Reserve Police Force

Shri Subha Chand
Sub-Inspector
185, Bn., Tral, Pulwama (J&K), C/o 56, APO
Central Reserve Police Force

Shri Yugal Kishore Singh
Sub-Inspector
41 Bn., Bangrasia, Bhopal (MP)
Central Reserve Police Force

Shri Jagat Singh
Sub-Inspector
RTC, Dharampur, Distt. - Solan,
Himachal Pradesh
Central Reserve Police Force

Shri Amrik Singh
Sub-Inspector
CTC, Neemuch, Madhya Pradesh
Central Reserve Police Force

Shri Harji Ram
Sub-Inspector
CTC, Coimbatore, Tamil Nadu
Central Reserve Police Force

Shri Cheedi Murali Krishna
Head Constable
Group Centre, Keshogiri-PO
Hyderabad, Andhra Pradesh
Central Reserve Police Force

Shri Kaptan Singh
Head Constable
33, Bn, Gangyal, Jammu
Central Reserve Police Force

Shri Ram Pal
Constable/Daftry
O/o IGP (OPS), Kashmir, C/o 56 APO
Central Reserve Police Force

Shri Sakal Dev
Washerman
CTC, Neemuch, Madhya Pradesh
Central Reserve Police Force

Shri Bhikham Ram
Washerman
16 Bn, Civil Line, Mathura, Uttar Pradesh
Central Reserve Police Force

Shri Tularam Shende
Safai Karamchhari
Group Centre, Nagpur, Maharashtra
Central Reserve Police Force

Shri Kamalapati
Cook
Group Centre, Avadi, Chennai, Tamil Nadu
Central Reserve Police Force

Shri Rithwik Rudra
Deputy Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Dr. Mahesh Shantaram Dixit
Deputy Director
Srinagar
Ministry of Home Affairs

Shri Shivaji Sinha
Assistant Director
Patna
Ministry of Home Affairs

Shri T. Manoharan
Assistant Director
Chennai
Ministry of Home Affairs

Shri Rajiv Gupta
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Yogesh Kumar Yadav
Assistant Director/Technical
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri K. K. Narayanan Nair
Assistant Director
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Puneet Deo Mishra
Deputy Central Intelligence Officer
Jaipur
Ministry of Home Affairs

Shri Vijay Kumar
Deputy Central Intelligence Officer
Srinagar
Ministry of Home Affairs

Shri Balbir Singh Manku
Deputy Central Intelligence Officer
Chandigarh
Ministry of Home Affairs

Shri Narinder Kumar Wadhvani
Private Secretary
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Ashok Kumar Sarkar
Section Officer
Itanagar
Ministry of Home Affairs

Shri Bimal Kumar
Assisitant Central Intelligence Officer Grade-I/G
Patna
Ministry of Home Affairs

Shri Sohan Singh
Assistant Central Intelligence Officer Grade-I/G
New Delhi
Ministry of Home Affairs

Shri Swapan Kumar Lala
Assistant Central Intelligence Officer Grade-I/G
Kolkata
Ministry of Home Affairs

Shri Asheesh Shrivastava
Assistant Central Intelligence Officer Grade-I/G
Raipur
Ministry of Home Affairs

Shri Surendran K. Pillai
Assistant Central Intelligence Officer Grade-II/G
Thiruvananthapuram
Ministry of Home Affairs

Shri Kundan Lal Bazaz
Assistant Central Intelligence Officer Grade-II/G
Jammu
Ministry of Home Affairs

Shri Dalbir Singh
Junior Intelligence Officer Grade-I/G
Amritsar
Ministry of Home Affairs

Shri Deo Kant Jha
Junior Intelligence Officer Grade-I/WT
Guwahati
Ministry of Home Affairs

Shri Sunil Ranjan Roy
Commandant
FHQ, New Delhi
Indo Tibetan Border Police

Shri Bhanwar Singh
Commandant
12th Bn, Matli, Uttarakhand
Indo Tibetan Border Police

Shri Prem Singh
Commandant
19th Bn. Bondasarahan, Himachal Pradesh
Indo Tibetan Border Police

Smt. Pashupati Devi Raikwal
Assistant Commandant
CRO, New Delhi
Indo Tibetan Border Police

Shri Darshan Lal Joshi
Subedar Major/Steno
Seemadwar, Dehradun, Uttarakhand
Indo Tibetan Border Police

Shri Yashpal Singh
Inspector
11th Bn., Pegong, North Sikkim, Mangan
Indo Tibetan Border Police

Shri Joginder Singh
Sub-Inspector
BTC, Bhanu Camp, Haryana
Indo Tibetan Border Police

Shri Madhwa Nand Joshi
Constable/Cook
FHQ, New Delhi
Indo Tibetan Border Police

Shri Ajai Singh
Group Commander
Manesar, Gurgaon
National Security Guard

Shri Seldou Langchin Khup
Group Commander
FHQ, New Delhi
National Security Guard

Shri Om Prakash
Assistant Commander-I
FHQ, New Delhi
National Security Guard

Shri C. T. Ravi
Assistant Commander-I
FHQ, New Delhi
National Security Guard

Shri Seichon Chongloi
Assistant Commander-I/GD
11 SRG, Gurgaon, Haryana
National Security Guard

Shri Anil Kumar Negi
Deputy Inspector General
SHQ Bongaigaon, Assam
Sashastra Seema Bal

Shri Rajwant Singh Kharyal
Commandant
T C Sapri,
Sashastra Seema Bal

Shri Kesav Chandra Dobhal
Staff Officer (Administration)
SHQ, Ranikhet
Sashastra Seema Bal

Shri Janaki Nath Dasgupta
Assistant Commandant
T C Salonibari
Sashastra Seema Bal

Shri Bodh Raj
Inspector
41st Bn., Guwahati
Sashastra Seema Bal

Shri Prem Singh
Sub-Inspector
41st Bn Guwahati
Sashastra Seema Bal

Shri Parimal Chandra Bhattacharyya
Accounts Officer
FHQ, Delhi
Sashastra Seema Bal

Shri Bhuwan Chandra Joshi
Private Secretary
SHQ Gorakhpur,
Sashastra Seema Bal

Shri Om Prakash Maini
Assistant Sub-Inspector
TC Sapri
Sashastra Seema Bal

Shri Avichal
Assistant Inspector General
FHQ New Delhi
Special Protection Group

Shri K. M. Yadav
Assistant Inspector General
FHQ New Delhi
Special Protection Group

Shri Nand Kishore Pandey
Senior Security Officer
FHQ New Delhi
Special Protection Group

Shri S. Srinivasan
Senior Security Officer (M)
FHQ New Delhi
Special Protection Group

Shri Dharamendra Kumar
Security Officer-I
FHQ New Delhi
Special Protection Group

Shri Jayant Kumar Patnaik
Security Officer-I (Tech.)
FHQ New Delhi
Special Protection Group

Shri Lachhman Ray
Sub-Inspector
Umiam, Meghalaya
North Eastern Police Academy

Dr. Tapan Chakraborty
Assistant Director
New Delhi
Bureau of Police Research and Development

Shri Virender Singh Kanwar
Deputy Superintendent of Police
Central Detective Training School, Chandigarh
Bureau of Police Research and Development

Shri T. B. J. S. Rajappa
Deputy Director
New Delhi
Directorate of Coordination Police Wireless

Shri Ram Sharan Verma
Deputy Director
New Delhi
Directorate of Coordination Police Wireless

Shri Kulwant Singh
Head Constable/Driver
New Delhi
National Crime Record Bureau

Shri Rajvir Singh
Inspector
New Delhi
National Human Rights Commission

Shri R. N. Reddy
Head Constable
Hyderabad, Andhra Pradesh
SVP N.P.A.

Shri S. K. Barik
Head Constable
Hyderabad, Andhra Pradesh
SVP N.P.A.

Shri S. Pandu Rangaiah
Head Constable
Hyderabad, Andhra Pradesh
SVP N.P.A.

Shri P. U. Mathai
Security Officer
Bureau of Civil Aviation Security, Mumbai
M/o Civil Aviation

Shri Vitul Kumar
Regional Passport Officer
Chandigarh
Ministry of External Affairs

Dr. Subhash Chandra Sahu
Deputy Inspector General
Rail Bhawan, New Delhi, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Udai Shanker Shukla
Deputy Chief Security Commissioner
Mumbai, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Atul Pathak
Senior Security Commissioner
Western Railway, Mumbai
Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Ramphal Pacharwal
Senior Divisional Security Commissioner
Izzatnagar, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri D. Daniel Jason Dhas
Assistant Security Commissioner
Crime Intelligence Branch, Chennai
Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Pankaj Krishna Halgekar
Inspector
Dadar, Western Railway, Mumbai
Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Krishnan Bhaskaran
Inspector
ICF, Chennai, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Mohd. Akbar
Inspector
6 Bn., Railway Protection Security Force
M/o Railways

Shri Virendra Pratap Singh
Inspector
Jabalpur Division, West Central Railways
Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Rajender Manjhi
Inspector
5th Bn. Trichy, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri C. K. Harilal
Sub-Inspector
ICF, Chennai, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Mohammed Mustafa
Sub-Inspector
Mysore, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Dharam Pal
Asstt. Sub-Inspector
Ratlam, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Nunna Venkata Subba Rao
Assistant Sub-Inspector/Driver
Vijayawada, Railway Protection Force
M/o Railways

Shri Lal Singh
Head Constable
6 Bn, Delhi, Railway Protection Security Force
M/o Railways

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND
PROMOTION)

New Delhi, the 5th November 2009

No. 5/15/2008-Leather.—The Central Government has approved a sub-scheme, titled "Development of Leather Park" with an allocation of Rs. 300 crores (Rupees three hundred crores) under Indian Leather Development Programme (ILDPP) for implementation during the 11th Five Year Plan period. The Scheme targets industrial clusters/locations with high growth potential, which require strategic interventions by way of providing world-class infrastructure support. The project cost will cover common infrastructure and building for support activities, depending on the needs of the Leather Parks. There will be flexibility in setting up Leather Parks to suit the local requirements. The scheme provides for a grant for setting up of Leather Park subject to a ceiling of Rs. 40 crore per park. Leather Parks would include; Tanning Parks, Leather Product Parks and Machinery Parks to manufacture machineries used in the leather sector as well as integrated parks housing both tanneries and the product units.

2. The benefits under the scheme shall be available to a SPV formed by a group of entrepreneurs (minimum being 7 legally independent companies) that are engaged in leather tanning, manufacturing of leather and non-leather goods and components and other activities associated with leather industry, which intend to set up production units in the proposed park. The project specific Special Purpose Vehicle (SPV), promoted by such entrepreneurs for development and management of the proposed park, shall be the recipient of the assistance under the Scheme. The net worth of the entrepreneurs i.e., his company has to be atleast Rs. 1 Crore and the combined net worth of the seven promoters forming SPV should be atleast Rs. 10 Crore. Government would engage the services of an agency that has proven experience in developing, financing and executing the industrial cluster infrastructure projects, as advisor in implementation of the scheme, from the stage of approval to commissioning of the project. The agency would assist Department of Industrial Policy and Promotion in monitoring and evaluation of the projects under the scheme.

3. The sub-scheme is applicable in all over India. The guidelines of the scheme is available on the website of the Department. Interested leather entrepreneurs can submit preliminary proposal under the scheme as detailed in the guidelines directly to the Department for approval. Department would approve the proposal on first come first serve basis.

FARIDA M. NAIK
Under Secy.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110001, the 4th December 2009

No. 1/1/2009-PD.—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Council of Scientific & Industrial Research Society has been reconstituted with effect from 26th June, 2009 for a period of three years by the Government of India and shall consist of the following :—

President

1. Hon'ble Prime Minister of India
(Dr. Manmohan Singh)
Prime Minister's Office
Room No. 148-B, South Block
New Delhi-110011

Vice-President

2. Minister of State (Independent Charge) of
Science & Technology and Earth Sciences
(Shri Prithviraj Chavan)
Prime Minister's Office
South Block
New Delhi-110011

Members

3. Minister of Finance
(Shri Pranab Mukherjee)
North Block
New Delhi-110001
4. Minister of Commerce & Industry
(Shri Anand Sharma)
Udyog Bhawan
New Delhi-110011
5. Shri Kapil Sibal
Minister of Human Resource Development
Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
6. Dr. K. Kasturirangan
Member, Planning Commission
Yojana Bhawan
Sansad Marg
New Delhi-110001
7. Dr. S. Banerjee
Chairman, Atomic Energy Commission
Anushakti Bhawan
Chhatrapathi Shivaji Maharaj Marg
Mumbai-400001 (Maharashtra)
8. Dr. Ashok Jhunjhunwala
Professor, Deptt. of Electrical Engineering
ESB-331-B
Indian Institute of Technology, Madras
Chennai-600036 (Tamilandu)

9. Shri Om Prakash Bhatt
Chairman
State Bank of India
State Bank Bhawan
Mumbai-400021 (Maharashtra)
10. Dr. Anand G Mahindra
Vice-Chairman & Managing Director
Mahindra & Mahindra Group
Mahindra Towers, GM Bhosle Marg
Worli
Mumbai-400018
11. Ms. Chandra D. Kocher
Chief Executive Officer & Managing Director
ICICI Bank Limited
9th Floor, South Towers, ICICI Towers
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051 (Maharashtra)
12. Shri Sarthak Bahuria
Chairman
Indian Oil Corporation Limited
Corporate Office
3079/3, JB Tito Marg
Sadiq Nagar
New Delhi-110049
13. Dr. Desh Bandhu Gupta
Chairman
Lupin Limited
B/4, Laxmi Towers
Bandra Kurla Complex
Bandra (W)
Mumbai-400051 (Maharashtra)
14. Shri Azim H. Premji
Chairman
Wipro Limited
Doddakanneli, Sarjapur Road
Bangalore-560035
15. Ms. Mallika Srinivasan
Director
Tractors and Farm Equipment Limited
35, Nungambakkam High Road
Nungambakkam
Chennai-600034
16. Prof. M. M. Sharma, FRS
Former Director
University Department of Chemical Technology
2/3, Jaswant Bagh
Behind AK Barally's
VN Purav Marg
Mumbai-400071 (Maharashtra)
17. Prof. M. Gourie Devi
Emeritus Professors of Neurology
Institute of Human Behaviour and Allied Sciences
New Delhi

18. Shri Ashok Kumar
Secretary
Department of Pharmaceuticals
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
19. Shri Ajay Shankar
Secretary
Department of Industrial Policy & Promotion
Room No. 157, Udyog Bhawan
New Delhi-110011
20. Shri R. Chandrashekhar
Secretary
Department of Information Technology
Ministry of Communication & Information
Technology
Electronics Niketan
6, CGO Complex, Lodi Road
New Delhi-110003
21. Dr. Shailesh Nayak
Secretary
Ministry of Earth Sciences
Mahasagar Bhawan, Block No. 12
CGO Complex, Lodi Road
New Delhi-110003
22. The following members of the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research shall be members of the CSIR Society for a period they are members of the Governing Body in accordance with Rule 3 (d) of the Rules & Regulations of CSIR :
- Ex-Officio Secretary
22. Prof S. K. Brahmachari
Director General
Council of Scientific & Industrial Research
Anusandhan Bhawan
2, Rafi Marg
New Delhi-110001
- Members
23. Ms. Sushma Nath
Secretary (Expenditure)
Ministry of Finance
North Block
New Delhi-110001
24. Dr. Chandra Shekhar
Director
Central Electronics Engineering Research Institute
Pilani-333031 (Rajasthan)
25. Prof. Siddhartha Roy
Director
Indian Institute of Chemical Biology
4, Raja S. C. Mullick Road
Jadavpur
Kolkata-700032
26. Ms. Sulajja Firodia Motwani
Joint Managing Director
Kinetic Engineering Ltd. & Director,
Kinetic Motor Company Ltd.
D-1 Block, Plot No. 18/2
MIDC Chinchwad
Pune-411019
27. Shri E. Sreedharan
Managing Director
Delhi Metro Rail Corporation
Metro Bhawan
13, Barakhamba Lane
Barakhamba Road
New Delhi-110001
28. Dr. Amit Mitra
Secretary General
Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
Federation House
Tansen Marg
New Delhi-110001
29. Prof. M. Vijayan
Honorary Professor/Distinguished Biotechnologist
Molecular Biophysics Unit
Indian Institute of Science
Bangalore-560012
30. Prof. Surendra Prasad
Director
Indian Institute of Technology, Delhi
Hauz Khas
New Delhi-110016
31. Dr. T. Ramasami
Secretary
Department of Science & Technology
Technology Bhawan
New Mehrauli Road
New Delhi-110016
32. Dr. M. K. Bhan
Secretary
Department of Biotechnology
Block 2, 7th Floor, CGO Complex
Lodi Road
New Delhi-110003
- K. JAYAKUMAR
Joint Secretary (Administration)
-
- MINISTRY OF POWER
- New Delhi, the 1st December 2009
- No. 37/2008-F.No. 2/13/2007-Adm.II.—The President is
pleased to appoint Shri Arun Kumar, IES as Director in

the Ministry of Power, with effect from the afternoon of 1st December, 2009, until further orders.

MADHUKAR SOOD
Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 16th December 2009

No. Q-16012/2/2009-ESA(NLI).—WHEREAS the V. V. Giri National Labour Institute, Sector-24, NOIDA has been registered as a Society under Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

AND WHEREAS Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

NOW, therefore in pursuance of Rule III of the aforesaid Society, and in continuation of the earlier Notification dated 4.11.2009, the following persons are nominated as members of the General Council of V. V. Giri National Labour Institute, NOIDA :

Representative from Employer's Organization :—

Member

- i. Shri K. C. Mehra
C-81, South Extension, Part-II
New Delhi-110049
Tel : 26268840, Mobile : 9899301956
Associated Chamber of Commerce and Industry of India
1, Community Centre, Zamrudpur,
Kailash Colony, New Delhi-110048.

Representative from Worker's Organization :—

Member

- ii. Shri P. T. Rao
Member, National Executive,
Bharatiya Majdoor Sangh,
Edakkattil House,
Sastha Temple Road
ALUVA-683101 (Kerala),
Ph. (Res.) 0484-2629344.
Mobile : 09495771811

RANBIR SINGH
Director